

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 जुलाई 2016—श्रावण 1, शक 1938

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2016

क्र. 32-18-2016-म-इकतीस-567.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट कृषक संगठन की संख्या के संबंध में, तथा उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सिंचाई प्रणाली के लिए, कॉलम (3) तथा (4) में विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
(1) जिला श्योपुर					
1	चम्बल नहर प्रणाली (वृहद)	270	57312	22	264
2	आवदा बांध (मध्यम)	32	8907	4	48
3	कराहल, पटोदा, पतवाडा, रामपुरा डांग, गूंजरगांवडी तालाव	5	433	1	6
4	खिरखिरी, बाढ, भोटपुरा, मोराई तालाव	4	678	1	6
5	रतोधन तालाव	1	374	1	6
6	बीरपुर तालाव	7	461	1	6
7	कोटा (छापर) तालाव	8	928	1	6
8	बारधा तालाव	14	1457	1	6
(2) जिला मुरैना					
1	चम्बल नहर प्रणाली (वृहद)	709	168003.8	70	840
2	खिरावली तालाव	6	1018.17	1	6
3	धनेला उ.सि.यो.	1	144.513	1	6
4	टोंगा तालाव	8	351	1	6
5	जबाहरगढ. तालाव	7	330	1	6
(3) जिला भिड					
1	चम्बल नहर प्रणाली (वृहद)	466	105817	43	516
2	राजघाट नहर परियोजना (वृहद)	234	35614.7	15	180
(4) जिला ग्वालियर					
1	हरसी परियोजना (वृहद)	274	65237.584	29	348
2	हसी उच्च स्तरीय नहर परियोजना (वृहद)	56	10283.9	5	60

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		ग्राम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
3	सिंध परियोजना द्वितीय चरण(वृहद)	23	7745.37	3	39
4	ककेटो बांध (मध्यम)	5	2261.85	1	12
5	रमौआ बेहटा (मध्यम)	19	3090.300	1	12
6	उदलपाडा तालाब	2	207.74	1	6
7	जख्वा सिमरिया तालाब	5	473.37	1	6
8	जलालपुर पारसेन तालाब	10	893.841	1	6
9	हिम्मतगढ तालाब	4	332.45	1	6
10	सीता का पुरा उ.सि.यो.	1	203.442	1	6
11	रैहट तालाब	5	830	1	6
12	खुढावली तालाब	1	200	1	6
13	करई तालाब	1	175	1	6
14	जखोदा तालाब	1	591	1	6
15	अमरोल तालाब	1	359.889	1	6

(5) जिला दतिया

1	राजघाट नहर परियोजना (वृहद)	512	96324.46	59	708
2	सिंध परियोजना द्वितीय चरण(वृहद)	67	13701.99	9	104
3	खर्वाघाट मध्यम सिंचाई योजना	24	3643.54	3	36
4	खेरी-लरायटा माईनर एरीगेशन प्रोजेक्ट	3	450	1	6
5	रामसागर तालाब, बड़ौनी तालाब	4	355	1	6
6	हथलई, सोमला, जिगना तालाब	4	674.71	1	6
7	कासना नाला तालाब	10	850	1	6

(6) जिला शिवपुरी

1	सिंध परियोजना द्वितीय चरण(वृहद)	130	29268.16	16	193
2	राजघाट नहर परियोजना(वृहद)	58	16088.89	8	96
3	पारोच तालाब (मध्यम)	10	2196.59	1	12
4	बुधना तालाब (मध्यम)	17	2683.74	1	12
5	अखाझिरी तालाब (मध्यम)	7	1497	1	12
6	बैराड तालाब, भटनावर तालाब, टोरा तालाब	9	926	1	6
7	पिपलोदा तालाब	8	891	1	6
8	मूजवार, इमलिया तालाब, भानगड़ पिकअप विथर	7	865	1	6
9	सेवड़ा, पाडरखेड़ा तालाब	5	790	1	6
10	भगोरा, बूढी बरोड, मोहनगड़ तालाब	11	990	1	6
11	रायचन्द खेड़ी, बेहट, पिपरघर, सिंहनिवास तालाब	6	362	1	6
12	भैसरावन, डिगडोली तालाब	4	204.82	1	6
13	कूड़ा, रामनगर, बांसखेड़ी, सतेरिया तालाब	10	652	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		ग्राम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
14	झालोनी तालाब	7	994.72	1	6
15	धपोरा, मुहारी, हरथोन तालाब,	8	684.75	1	6
16	फूटीवार, खोड़ नं. 1, सेमरी, डविया गोविन्द तालाब	8	781.64	1	6
17	नागदा तालाब	5	984	1	6
18	दिनारा, अलगी, भेव तालाब	8	1017	1	6
19	खिरिया पुनावली, सेमरा, चिन्नौद तालाब	6	514	1	6
20	डुमगुना, नारही, राजगढ तालाब	9	693	1	6
21	आडेर, रमगढ़ा, रमगढ़ा, बेरखेड़ा, गधार्ई तालाब, करई स्टॉप डेम	11	857	1	6
22	माधवराव सरोवर (मडहर)	11	1011	1	6
(7) जिला गुना					
1	बांडियानाला योजना	9	1734.828	1	12
2	रामपुर तालाब	41	7546.954	4	48
3	संजय सागर परियोजना	46	5459.92	3	36
4	मोहरी, गोपालपुरा तालाब	3	394.454	1	6
5	सिरसी, आरी तालाब	5	345.851	1	6
6	सिलावटी, इमझरा तालाब	2	510.007	1	6
7	सूखानाला माली तालाब	6	523.914	1	6
8	रेंझार्ई तालाब	5	274.805	1	6
9	भैंसाटोरी तालाब	10	1152.505	1	6
10	कलोरा बंधा	4	590.848	1	6
11	बीलाखेडी, खण्डेला तालाब	7	446.645	1	6
12	सानरसिंगा तालाब	7	569.000	1	6
13	धानबाड़ी तालाब	4	125.000	1	6
14	चाचौडा तालाब	13	853.427	1	6
15	पीपल्याखुशाल तालाब	4	447.400	1	6
16	घाटाखेडी तालाब	7	716.204	1	6
17	भोजपुरा तालाब	12	810.0000	1	6
18	तातुजखेडी तालाब	10	276.000	1	6
19	राजीव सागर परियोजना	17	2000.000	1	6
20	बारोद तालाब	9	769.395	1	6
21	आरोन उ.सि.यो.	7	307.601	1	6
22	कुंवरपुरा, डोंगर तालाब	4	195.917	1	6
23	वीराखेडी तालाब	9	831.454	1	6
24	सुमेरी तालाब	14	870.283	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
25	बिरयाई, कैकडिया खुर्द, पागरीघाटा, सोल्यावेह तालाब	9	925.094	1	6
(8) जिला टीकमगढ़					
1	राजघाट नहर परियोजना (वृहद)	12	2989.65	1	12
2	राजेन्द्रसागर तालाब (मध्यम)	14	2069.74	1	12
3	जामनी नहर योजना (मध्यम)	10	2109.165	1	12
4	नन्दनवारा तालाब (मध्यम)	15	1825.083	1	12
5	महेन्द्र सागर, हनुमान सागर, दीप सागर, हीरानगर बावरी तालाब, मानिकपुरा उद्वहन सिंचाई योजना	8	786.316	1	6
6	अस्तौन, सुनहरा, माडूमर, बेलाताल तालाब	4	229.58	1	6
7	प्रेम सागर, रईरा, मामौन, सिद्धखाद, रिगौरा तालाब	11	597.143	1	6
8	लार, लक्ष्मनपुरा, नन्हीटेहरी, डिकौली, मडरखा तालाब	4	279.353	1	6
9	पोखना, बडागांव, उपतसागर, परा, मौखरा, डूडा तालाब	6	747.431	1	6
10	बराना बम्हौरी, गिदवासन तालाब, चिरौलघाट स्टापडेम	10	798.536	1	6
11	मोहनगढ़ तालाब, पितनौरा उद्वहन योजना	10	849.315	1	6
12	दिगौड़ा, दुशयारा, टुडयारा तालाब	6	212.931	1	6
13	पटैरिया, दरगांय कला, दरगांय खुर्द तालाब, मालपीथा उसियो	6	366.145	1	6
14	कुम्हैड़ी, वृषभानपुरा, अचर्रा तालाब, केशवगढ़ स्टापडेम	13	886.402	1	6
15	मदनसागर तालाब	5	910.82	1	6
16	धर्मसागर तालाब	10	1692.498	1	6
17	घूरा, बहारू, कंदवा तालाब	4	560.037	1	6
18	पदमासागर, शाहपुरा, समदुआ, बिलवारी, वैरवार, कीरटवारी, चतुरकारी तालाब	7	712.598	1	6
19	खरों, फुटेर, मोरपारिया, चंदेरा, बैरकीनाला, चितानाला तालाब	7	359.497	1	6
20	धुरैनिया, रामनगर, छुटकी, अतरार, रम्मसागर, बण्डळामुराहा, परा, पलेरा तालाब	10	739	1	6
21	मदनसागर, अहार, नारायनपुर तालाब,	12	1335.017	1	6
22	ग्वालसागर, विन्ध्यवासिनी तालाब	11	1022.866	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
23	सरकनपुर, भितरवार, बलबंतपुरा, लखेरा, हनुमतपुरा खैरा तालाब, रानीताल भेलसी तालाब	12	477.248	1	6
24	मातौल, फुटेर तालाब	4	249.27	1	6
25	धनेरा, छिदारी, ददगांय, कोटरा, चंदेरी तालाब	6	531	1	6
26	खोंड़ेरा, डुडियनखेरा, ऐरोरा, कुडियाला तालाब	10	578	1	6
27	जेरौन, सिमरा तालाब	3	276.084	1	6
28	वीरसागर तालाब	5	376.560	1	6
29	अर्तरा, दरैठा, दुमदुमा, लड़वारी तालाब,	7	208.260	1	6
30	टेहरका, घूघसी, निवाड़ी तालाब	8	830.534	1	6
31	सिन्दूरसागर, सकूली तालाब, पुतरीखेरा रेग्यूलैटर	9	535.886	1	6
32	सुजारा उद्वहन योजना	4	580	1	6
33	भीतरी उद्वहन योजना	5	731.409	1	6
(9) जिला छतरपुर					
1	रनगंवा नहर परियोजना (वृहद)	29	7980.54	4	48
2	उर्मिल नहर परियोजना (वृहद)	25	7672.376	7	84
3	बेनीगंज बांध परियोजना (मध्यम)	18	5314.67	4	48
4	बीला बांध परियोजना (मध्यम)	39	7186	5	60
5	सिंहपुर बैराज मध्यम परियोजना	6	3822.68	2	24
6	केल एनीकट, झिन्ना तालाब	5	520.61	1	6
7	तुलाताल, मनोरिया तालाब	2	299.196	1	6
8	गोरा ताल	10	1093	1	6
9	बूढा बांध	5	1819.84	1	6
10	ईशानगर, नन्दगांय तालाब	4	486	1	6
11	थरा, रक्शापुरवा, बगौता, मातगुवां तालाब	5	448	1	6
12	मोतीसागर, भिराटा, आमखेड़ा तालाब	4	440	1	6
13	जगतसागर, घुबेला तालाब	2	384	1	6
14	बसिया, झीझन, मडरका तालाब	3	417	1	6
15	जोरन, चुरवारी तालाब	5	251	1	6
16	रगौली, पिपट कसार, मचयारा, डरगुवां तालाब	5	364	1	6
17	बक्सोड़, बघा, अनगौर, बनयारा तालाब	6	538	1	6
18	मोतीगढ़, डिलारी, झरकुआ, लम्पटी, बृहपुरा, राईपुरा तालाब	6	358	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
19	भरतपुरा, किशनपुरा, रामसागर, नयाताल तालाब	4	664	1	6
20	सेदपा बांध	10	1415	1	6
21	बडामलहरा, कम्मोदपुरा, सडवा तालाब, श्यामरी एनीकट	6	678	1	6
22	बघा, बरमसागर, टवारी, सिद्धसागर, पनवार तालाब	9	865	1	6
23	गकरियां, ग्योलारी तालाब	4	250	1	6
24	पडरिया तालाब	4	331	1	6
25	पहाडगांव तालाब	1	223	1	6
26	देवपुर द्वितीय तालाब	1	220	1	6
27	दलीपुरा, बमनौरा, रामटोरिया तालाब	3	525	1	6
28	पनया, बडा ताल, कीरत सागर तालाब	5	223	1	6
(10) जिला पन्ना					
1	देवेन्द्रनगर तालाब (मध्यम)	20	2400	1	12
2	लोकपाल सागर, सुनेहरा, दुबेताल, कटरा, जनकपुर, बिलखुरा तालाब	2	1552	1	6
3	आधार सागर, सकरिया, वृन्दावन तालाब, सवाईगंज, रानीपुर, ककरहटी वियर	5	1240	1	6
4	मुटवा, भिलसाय, गिरवारा तालाब, राजापुर, बडागांव वियर	1	953	1	6
5	भवानीपुर, बृजपुर, हाटूपुर, जमुनहाई तालाब	2	756	1	6
6	रमखिरिया, दियाब, पहाड़ीखेड़ा तालाब	1	969	1	6
7	भापतपुर, पडरहा, रानीताल तालाब, विमतहा वियर	1	576	1	6
8	बरारनाला, बहरी, रायपुर तालाब	3	953	1	6
9	बड़ी बनहरी, छोटी बनहरी, सब्दुआ, गुमानगंज, बिलाही, बरहेपुर तालाब	1	1266	1	6
10	बराछ, विक्रमपुर, रमपुरा तालाब, कोहनी, द्वारी वियर	4	1174	1	6
11	बरोहा, पगरा, महुआडाडा, कोहा तालाब चीपा वियर,	3	720	1	6
12	जसवंतपुरा, द्वारी तालाब	6	1439	1	6
13	सेमरी, सिली, नचनौरा, गुनौर, सुंगरहा तालाब	4	1381	1	6
14	श्यामरडाडा, ककरहाइ, सिमरी, पवईया तालाब, निवारी वियर	4	1286	1	6
15	करही, छिरहा, पटोरी, खम्हरिया तालाब	5	884.92	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे)		
1	2	3	4	5	6
16	उमेही, केन एनीकट, सुगरहा नं. 1 एवं 2, गौरा नाला तालाब	7	746	1	6
17	अमदर, रैयासांटा, कुआताल, नादन तालाब	11	633.20	1	6
18	अमहा, उमरी, कुंवरपुर तालाब	14	605.14	1	6
19	पटी, रैपुरा तालाब	4	299.58	1	6
20	रंगौली, भर्सा, जुगरवारा, सलैया, फेरनसिंह, गंजदा तालाब	7	651.00	1	6
21	देवरा नं01, श्यामगिरी, शिवसागर तालाब	3	226.00	1	6
22	बघवारकला, बडागांव, खैरो, बघनरवा तालाब	5	429.95	1	6
23	जमडा तालाब	1	205.00	1	6
24	सिमरा, सांटा तालाब	3	259.00	1	6

(11) जिला सागर

1	बीला मध्यम परियोजना	48	5091	4	48
2	चंदिया तालाब	9	1826	1	6
3	तिगोडा, इंदौरा तालाब	2	252	1	6
4	नारायणपुरा, बरायठा तालाब	2	317	1	6
5	गूगरा, बिनेका तालाब	3	221	1	6
6	हिनीता, खारमऊ तालाब	3	185	1	6
7	बसाहरी, माला, महेरी, तेवरा तालाब	2	431	1	6
8	मालथौन, बांदरी, गढ़ौला तालाब	10	391	1	6
9	सुरखी, हीरापुर जलाशय	10	558	1	6
10	रतौना, महुआखेड़ा, पड़रई, मढैयागौड जलाशय	7	561	1	6
11	नयाखेड़ा, भैंहारी, बाछलोन तालाब	6	535.68	1	6
12	झिरिया, टडा तालाब	4	527	1	6
13	मंसूरवारी, मछरिया, सतधारा, छेवला जलाशय	15	1781	1	6
14	मंसूरवारी, सतधारा, मछरिया तालाब	7	1009	1	6
15	सतधारा जलाशय	9	1101	1	6
16	खैराना तालाब	9	295	1	6
17	भौहारा तालाब	9	1990	1	6
18	किशनपुर तालाब	2	249.66	1	6

(12) जिला दमोह

1	माला जलाशय (मध्यम)	12	2339.67	1	12
2	दतिया जलाशय	4	409.43	1	6
3	खमरिया, बगसरी, पटवा, छोटी देवड़ी जलाशय	5	574.37	1	6
4	मझगुंवा विलेज, मझगुंवा हंसराज जलाशय	7	820.39	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
5	मोतीनाला, गाझघाट जलाशय	3	395.94	1	6
6	धिरईपानी जलाशय	5	731.15	1	6
7	आबू, सन्यासी, केवलारी, ओमपानी, सिद्धबाबा जलाशय	8	751.88	1	6
8	बरपटी, हरदुवा मुडर, पटवा जलाशय	9	1104.4	1	6
9	जमुनिया, बांसनी जलाशय	6	963.12	1	6
10	मांदकपुर, सेमरखो जलाशय	3	405.08	1	6
11	कालापानी, हरदुवा खुर्द जलाशय	5	546.96	1	6
12	गाझघाट, बहेरिया, मढ़ा जलाशय	8	653.98	1	6
13	रीछई, जमनेरा जलाशय	8	1082.72	1	6
14	भजिया जलाशय	10	1171.59	1	6
15	पौडी जलाशय	6	628.3	1	6
16	जबेरा जलाशय	7	674.51	1	6
17	पिपरिया जुमरान, जलेहरीधाबा, हरदुवा सडक, भाटखमरिया, मंगरई जलाशय	9	877	1	6
18	तेजगढ़ जलाशय	14	1376	1	6
19	बेलदाना, हरदुआ पानी, मूहय, चनगौर, सलौन, झलौटी नाला वियर	7	793.05	1	6
20	दरौली जलाशय	7	1173.4	1	6
21	बांसी चिखली, चंदना हरई जलाशय		417.4	1	6
22	लालपानी जलाशय	3	250.25	1	6
23	पौडी जैतगढ़ जलाशय	4	191	1	6
24	गुदरी जलाशय	5	472.4	1	6
25	तिरगढ़, बिलगुंवा जलाशय	5	461.68	1	6
26	हवला, बालाकोट जलाशय	3	523.82	1	6
27	पंडा जलाशय	5	386	1	6
28	घाना मैली, कलरेवा, हरदुआ पौडी पटीमहरालसिंह जलाशय	8	664.13	1	6
29	सगौनी, नईबंदी, कुसमी जलाशय	6	1115.25	1	6
30	खोबा, कुलूवा जलाशय	3	291.02	1	6
31	कचौरा, बराना, समधन जलाशय	6	1112.15	1	6
32	नरगुंवा जलाशय	3	342.06	1	6
33	अम्बाही जलाशय	3	264.73	1	6
(13) जिला सतना					
1	बाणसागर परियोजना (वृहद)	85	13514.01	8	97
2	भैंसवार बांध (मध्यम)	11	1571	1	12
3	कुलगढ़ी बांध (नध्यम)	6	1214	1	12

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
4	दुवेरा, झूरानाला, मगरदहा वियर	10	328	1	6
5	नीमी, कोठी, जमुनिहाई वियर, खजुरिहा, तूमिन तालाब	12	408	1	6
6	बौलिहा, करसरा, रजरवारा रेग्युलेटर	5	364	1	6
7	अमकुई, पहाडी (उचेहरा), महाराजपुर बांध, अनरान स्टाप डेम, अमकुई वियर,	16	656	1	
8	सिंहपुर, मिडकानी, गोंड, छिंदुआ, पहाडी बांध (नागौद), डडिया, खनगढ (भवंर) स्टापडैम, टीकर, नुनगरा, सिद्धपुर, चूना वियर	17	1020	1	6
9	करारी वियर, रमनी सागर, विजय सागर बांध	5	415	1	6
10	नकतरा बांध, अमड़ा नाला वियर	7	427	1	6
11	सलैया वियर, बदरा रेगुलेटर, मझगवां, धनवाही, नरवार तालाब	7	592	1	6
12	लिलजी रिजरवायर	8	518	1	6
13	देवरा मोलहाई, जगदीश सागर, हिनौता, रजली बांध, सेंदुरा स्टाप डेम	6	401	1	6
14	असरार, किरहाई, इटमा कोटार, मौहास, छायासागर, अमझर, पटरा बांध, मैहरिया, डोमा वियर	10	1093	1	6
15	कोका, मुकुन्दपुर, महुडर बांध,	9	685	1	6
16	अमुआ बांध, अंधरखोह तालाब, मझियार, कांडीचुआ, हलावन वियर	11	317	1	6
17	गैवर, रगौली, सेहरा वियर, बिरहना बांध, बोदा तालाब	12	737	1	6
18	चितहरा, कुरी, पटना बांध, चकरा, हथिया, खुटहा, चमरा वियर	15	1531	1	6
19	खटकरी, कोनिया, पौड़ी गरादा, इंचौल वंशीपुर वियर	7	424	1	6

(14) जिला रीवा

1	त्योथर उद्वहन योजना (वृहद)	133	11155.58	4	48
2	बाणसागर परियोजना (वृहद)	372	60763.24	29	348
3	जरमोरा तालाब (मध्यम)	39	3208	2	24
4	गुरमा परियोजना (मध्यम)	118	7181	4	48
5	गोविंदगढ तालाब	8	777	1	6
6	बमरहा तालाब	18	1980	1	6
7	पड़ोखर उद्वहन	12	295	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
8	तमरा पहाड़ तालाब	1	211	1	6
9	पीताम्बरगढ़, नैयानाला, पतनारी तालाब	11	831	1	6
10	देवरी, जूडा, गोवरदहा, लालगंज, पिपरछत्ता तालाब	12	807	1	6
11	मऊगंज, मदरावल तालाब	8	1137	1	6
12	वेलहा, अटारी तालाब	5	1028	1	6
13	रामसागर, नंदनपुर, रकरी तालाब	9	721	1	6
14	पाड़र, छुहिया, कन्हैया, कदुआवन तालाब	13	915	1	6
15	लोनी तालाब	12	1880	1	6
(15) जिला उमरिया					
1	उमरार, कोयलारी जलाशय	20	1943	1	6
2	महरोई, चंदवार जलाशय, जिन्दानाला, भदार व्यपवर्तन	10	1412	1	6
3	मानपुर व्यपवर्तन, बमेरा, गढ़पुरी जलाशय	9	1116	1	6
4	मछरार जलाशय, कथली व्यपवर्तन	22	552	1	6
5	बरबसपुर, कन्नाबहरा, ओदरी, भौतरा, काचोदर, पटपरिहा जलाशय	9	1091	1	6
6	अमहा, बरुहा, बसाढ़ व्यपवर्तन	7	1343	1	6
7	कोहका, घोघरी, बोदली, सजनिया जलाशय	8	1286	1	6
8	धनवाही व्यपवर्तन	14	1980	1	6
9	वनदेही, मुडगुडी जलाशय, मझखेता व्यपवर्तन	8	998	1	6
(16) जिला शहडोल					
1	बाणसागर परियोजना (वृहद)	29	4047	2	24
2	बुडवा जलाशय	5	603.74	1	6
3	खन्नौधी, मलमाथर, करकट, बुचकी, पैलवाह जलाशय	5	133.00	1	6
4	सिलपरी, बरमनिया, कुनी, बगइहा, दुलावर जलाशय	9	512.00	1	6
5	मेहरो, भीखमपुर, घुघरी, पड़खुरी, बिरहुली, चंगेरा, सेमरा, हरही जलाशय	12	1512.00	1	6
6	सिडली, बरगवाँ, हरीडीह, करही (जमड़ी), रूपौला जलाशय	10	1106.00	1	6
7	पोंगरी जलाशय, मैका, मैकी, हरदी, मारतरा बांध	6	718.30	1	6
8	मिठौरी, सगरा, जोधपुर, सेमरिया, पथखई बांध	8	1138.00	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
9	चंदनिया, कठौतिया बांध, मझगवॉ टैंक, मझगवॉ बियर, बंधवा जलाशय	6	790.00	1	6
10	सिंहपुर बियर, धनौरा, सारंगपुर बांध	7	901.00	1	
11	कनाड़ी, बिनैका, झलमला, अटरिया जलाशय	7	726.00	1	3
12	लखनौटी, आमाझिरिया जलाशय, चूंदी डायवर्सन	6	948.00	1	6
13	ओदारी डायवर्सन, कुदरी, अमझोर जलाशय	8	740.00	1	6
14	आखेटपुर, मऊ, खड्डा, चरखरी, देवरी जलाशय, शहरगढ़ डायवर्सन	10	833.00	1	6
15	छतैनी, उमरगढ़, हिरवार, जमोड़ी, बनासी जलाशय	9	793.00	1	6
16	शाहपुर, पड़मनिया, बंधवाटोला, करचुल जलाशय	10	630.00	1	6
17	उचेहरा, देवगढ़ जलाशय	3	564.94	1	6
18	बिजहा, पोड़ी, झिरिया, छूंदा, मोहनी जलाशय	6	415.00	1	6
(17) जिला सीधी					
1	महान (गुलाब सागर) परियोजना (वृहद)	59	10771.887	6	72
2	बाणसागर परियोजना (वृहद)	282	28784.15	15	179
3	बरचर बांध (मध्यम)	16	2686	1	12
4	विसैधा बांध परियोजना (मध्यम)	9	1006	1	12
5	सीधी बांध, कोल्हूडीह तालाब	15	978.11	1	6
6	सारो, तुरा, नेबूहा, सपही, बमरहा बांध	20	1677.62	1	6
7	शेर, जमधर, मोहड़ी बांध, सेहरा उद्वहन, सेहरा एनीकट	16	1591	1	6
8	गंजरी, मराठा, बेलहा, करमाइ, चुवाही बांध	8	1692.54	1	6
9	कोझार, बकिया, देवरी बांध, कारीखोह, जर्वोखोह, लुरघुटी, पोड़ी, हैकी एनीकट	12	1917	1	6
10	सेहरा बांध, मड़वास, अमहा, त्रिचुली एनीकट, महान उद्वहन	18	1799	1	6
(18) जिला नीमच					
1	मोरवन तालाब (मध्यम)	26	2671	1	12
2	मालगढ़, लासूर, पालराखेडा, लापिया, निसन्नी, केनपुरिया तालाब	15	786	1	6
3	नयापुराना, धनगांव, रलायता, कवई तालाब	12	971	1	6
4	मालखेडा, दसानी, भरभडिया, धामनिथ, जमुनिया तालाब, बमोरा पिकवियर	10	470	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
5	जीरन, हरवार, चैनपुरा, हमेरिया तालाब	6	578	1	6
6	चम्बलेश्वर तालाब	10	1567	1	6
7	पडदा तालाब	1	340	1	6
8	आंत्री उ.सि.यो	4	363	1	6
9	मोहकमपुरा, बनी तालाब	4	61	1	6
10	जोडमी उ.सि.यो	5	579	1	6
11	राजपुरा उ.सि.यो	1	120	1	6
12	कुण्डालिया, भमसर, बेसला तालाब	4	261	1	6
13	अमरपुरा तालाब	7	389	1	6
14	खानखेडी उ.सि.यो	11	1610	1	6
(19) जिला मंदसौर					
1	रेतम बैराज (मध्यम)	3	242.92	1	12
2	दलौदा सगरा, तालाब	3	231.00	1	6
3	करोली, घटोदा तालाब	6	508.26	1	6
4	झोटखेडी तालाब	2	343.30	1	6
5	मुदंडी तालाब	2	266.70	1	6
6	रणायरा उ.सि.यो.	3	152.55	1	6
7	बसई उ.सि.यो.	2	105.50	1	6
8	भगोर उ.सि.यो.	2	264.00	1	6
9	लदुना तालाब	2	151.64	1	6
10	असावती, ढाबला देवल, जुनापानी, करावद तालाब, आगर पि.अ.वि.	12	731.05	1	6
11	काका साहब गाडगील सागर	12	1982.69	1	6
12	धर्मराजेश्वर, चंदवासा तालाब	4	251.15	1	6
13	अजयपुर, खेजडिया मेघा तालाब	2	229.01	1	6
14	भालोट, बहीखेडा तालाब	3	193.80	1	6
15	लेदी, सम्मतखेडी, खेरखेडी तालाब	5	576.085	1	6
16	इन्द्रगढ़ तालाब	4	738.07	1	6
17	बिल्ली, अंत्रालिया, दुधाखेडी तालाब, सुजानपुरा उ.सि.यो.	5	363	1	6
18	रामकुण्ड, बड़ोदिया तालाब	4	439.511	1	6
19	रलायता तालाब	3	88.127	1	6
20	मोलाडोंगर, कोटडा बुजुर्ग तालाब, फेलाडोंगर पि. अ.वि.	6	526.51	1	6
21	ढाबलामनोहर, सांतलखेडी तालाब	3	183.43	1	6
22	हनुमंतिया, पालखण्डा, सुराखेडी, कोटडा बुजुर्ग तालाब	6	432.6	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
23	दुगनी तालाब	1	190.8	1	6
24	गोपालपुरा, सेमरोल तालाब	10	866.68	1	6
(20) जिला रतलाम					
1	सरोजसरोवर (धोलावड़) (मध्यम)	59	5121	3	36
2	बोदिना., शिकारवाड़ी, खेड़ी, रामसागर, दिवेल तालाब	6	348.00	1	6
3	धामनोद, गोवर्धनसागर, बंजली, रामपुरिया तालाब	8	482.30	1	6
4	कमेड़, मलवासा, सिमलावदा, सेवरिया तालाब	4	317.26	1	6
5	शिवगढ़, कांगसी, ग्वालगढ़ तालाब	10	683.35	1	6
6	बाजना, खेरदा, लाम्बीसादड़, गढ़ीगमना तालाब	6	269.30	1	6
7	भामट, नाल, अमरकुई तालाब	21	654.46	1	6
8	रावटी, रानीसिंग, गरवारा, हरथल, मनोरीपाड़ा, डाबरी तालाब	9	521.60	1	6
9	रूपनियाखाला तालाब	7	1492.00	1	6
10	बिरमावल, रत्तागढ़खेड़, झरखेड़, प्रितमनगर, सरवड़, धोलका, कुएडाल तालाब	9	590.97	1	6
11	फाचरिया, पेलादड़ी तालाब	4	242.00	1	6
12	कालुखेड़ा क्रं. 1, कालुखेड़ा क्रं. 2, बागिया, सुजापुरा तालाब	3	303.00	1	6
13	भमरियानाल, मचुन तालाब	7	374.24	1	6
14	बगुनिया, असावता, पिपलियासिसोदिया तालाब	4	332.98	1	6
15	केलकच्छ, अलकाखेड़, गुड़भेली, पाटड़ी तालाब	6	369.69	1	6
16	पलास, कोलवाखेड़ी, सुरजमल जैन, लालगुवाड़ी तालाब	11	945.69	1	6
17	कोलपुर, सेमलखेड़ा, चावलाखेड़ी तालाब	12	474.10	1	6
18	पिपलियासिहोर तालाब	6	451.26	1	6
19	मोरिया, रिछा तालाब	7	296.00	1	6
20	करवाखेड़ी, बरखेड़ा, माधोपुर तालाब	3	410.79	1	6
21	सुरजबड़ला, भएडारिया., अम्बापाड़ा तालाब	6	350.44	1	6
(21) जिला उज्जैन					
1	अरनिया बहादुरपुर तालाब (मध्यम)	13	3179.83	2	24
2	सरवन्खेड़ा, कृष्णसुदामा तालाब	8	266.02	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
3	काजीखेडी तालाब	10	1346.46	1	6
4	सिमरोल तालाब	2	127	1	6
5	रुदाहेडा तालाब	4	426.57	1	6
6	अंतलवासा तालाब	6	702	1	6
7	सिपारा, बुरानाबाद तालाब	5	441.99	1	6
8	बागला तालाब	1	280.03	1	6
9	पाडलिया, रजला, भारला तालाब	7	407.456	1	6
10	उन्हेल, रामाबालोदा, बेडावन तालाब	4	543.35	1	6
11	नारेला, बालोदाकोरन तालाब	4	869.57	1	6
12	साहिबखेडी तालाब	8	697.1	1	6
13	भैंसाखेडी तालाब	4	543	1	6
14	सिलारखेडी, गावडी तालाब	5	444.65	1	6
15	जस्ताखेडी तालाब	5	428.9	1	6
16	उण्डासा तालाब	5	500.41	1	6
17	कनार्दी पुराना, कनार्दी नया, शामगी, नैनावद, खरखेडी, खतीखेडी, लक्ष्मीपुरा तालाब	7	503.35	1	6
18	कडोदिया, पचौला तालाब	2	270.34	1	6
19	कोयलखेडी तालाब	1	540.46	1	6
20	देवीखेडा तालाब	7	762.09	1	6
21	घट्टिया तालाब	5	563	1	6
(22) जिला शाजापुर					
1	लखुन्दर परियोजना (मध्यम)	21	3107.56	2	24
2	चील्लर बांध (मध्यम)	35	3441	3	36
3	भेसरोद, बोरी तालाब, पचोर उ.सि.यो.	4	695	1	6
4	चौमा उ.सि.यो., बुरलाय ता.	3	228	1	6
5	खेडा न्यू एवं ओल्ड, रंथमवर, बेरछी, बोरसली एवं सेमली, पोलायखुर्द, खेडी तालाब	9	477	1	6
6	सिमरोल तालाब	9	1099	1	6
7	निपानिया तालाब	5	587	1	6
8	नरोला तालाब	1	605	1	6
9	सिलोदा तालाब	1	453	1	6
10	अरंडिया, अरन्या, तिलावद, हर्राजखेडा, पोचानेर, बावडीखेडा तालाब	2	527	1	6
11	भान्याखेडी, चाकरोद, चाकरोद, खोंखरा, ईमलीखेडा तालाब	1	548	1	6
12	अकौदिया, देवली, पोलायकलां, टांडा तालाब	1	487	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
13	जैठडा, खाम, रघुनाथपुरा तालाब	1	457	1	6
14	ढाबलाधीर, पिपल्यानगर उ.सि.यो.	1	738	1	6
(23) जिला देवास					
1	चन्द्रकेशर बांध (मध्यम)	26	4000	4	48
2	दतुनी परियोजना (मध्यम)	36	9800	5	60
3	पारस, भीकुपुरा, पानकुआ नं.1,2 तालाब	11	1588.95	1	6
4	टाकलीखेडा तालाब	2	235	1	6
5	बोरानी तालाब	3	207	1	6
6	महीगांव तालाब	3	392	1	6
7	कूच, बोरी, डांगराखेडा तालाब	9	766.06	1	6
8	मोमनपुरा, अघेरा, मेंडिया तालाब	12	780.01	1	6
9	राजानल, ओरनी, छाजनमैना तालाब	7	659.91	1	6
10	पिपलरंवा, भूतिया, लकुमड़ी तालाब	4	234.27	1	6
11	नागदा, सतबर्ली., पटाडी, सिंघनी, सिया, अमलावती तालाब	12	568.08	1	6
12	गुराडिया सूरदास, गुराडिया, चान्दगढ तालाब	7	745.64	1	6
13	भैसाखेडी, जनोली, बुदासा, तालाब	11	1287.68	1	6
14	चिडावद, सड़क पिपल्या, पाडल्या तालाब	3	229.69	1	6
(24) जिला झाबुआ					
1	माही वृहद् परियोजना	73	10940.79	8	96
2	कालापिपल, आमलीफलिया, गोला, उमरी, रोटला, उदयपुरिया, परवट, पिलियाखदान तालाब	13	570.22	1	6
3	हीरापुर, भगोर, गोपालपुरा, नारेन्दा, खेड़ा, मोरीपाड़ा, जुलवानिया, डोकरवानी तालाब	6	563.37	1	6
4	गोलापाडा पि.अ.वि., झकेला, झिरावदिया, छापरी, रामा, हत्यादेली, वाग्नेरा, सातउमरा, देवली, बनियामंकी, बोचका, वागलावाट तालाब	8	1103.44	1	6
5	धमोई, बड़ी बावड़ी, आंबा, सेमलखड़ी, सागिया तालाब	7	1502.22	1	6
6	नरसिंगपुरा, दौलतपुरा. क्र.1, लोअर झुमका, फतेपुरा, खरडू, दौलतपुरा क्र.2, रेहन्दा तालाब	9	890.11	1	6
7	रामपुरा, भूरीमाटी, धामनीकटारा, छापरखण्ड तालाब	9	491.33	1	6
8	समोई, रूपाखेड़ा, रेवामण्डली, कंजवानी, छोटी कंजवानी, खेड़ा, छाजन छोटी तालाब	9	614.12	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
9	गुलाबपुरा, मोहनपुरा, आंबाडूंगरा, वडलीपाड़ा, खड़कुई, सजवानी तालाब,	9	805.85	1	6
10	बजरंग सागर, जरात, हत्यादेली, झोंसली, देदला, अगराल, खेड़ी, गडवाड़ा, सजेली, कड़वापाड़ा, महुड़ा तालाब	17	1301.57	1	6
11	शिवसागर तालाब	7	585.00	1	6
12	भावपुरा, आमली, सागा, खटावला, छापरी, धैथम, तोरनिया, तलाई तालाब	10	509.78	1	6
13	टिमरवानी, उदयपुरिया क्र.1, क्र.2, छोटाजुलवानिया, बोरावा, मियाटी, बेड़ावा, नाथपाड़ा, कुण्डीयापाड़ा तालाब	10	422.57	1	6
14	सुजापुरा, नवापाड़ा, नाहरपुरा, सेमलिया, बोरड़ी तालाब	10	535.42	1	6
15	उन्नई, खोरिया, सातेर नया, पुराना, अमरगढ़, भैसागरा, कलसाड़िया, असालिया तालाब	8.0	734.99	1	6
16	रेला, गंगाखेड़ी, मोर, गेहण्डी क्र. 1, क्र. 2, करवड़ तालाब	7	573.91	1	6
17	बरवेट क्र. 1, जामली, बरवेट क्र. 2, डाबरी, सलोनिया, देवली तालाब	14	681.93	1	6
18	खवासा क्र.1, क्र.2, जुनाखवासा, सागवा क्र.1, क्र. 2, नारेला, चवरिया, चापानेर तालाब	9	615.89	1	6
19	भामल, रन्नी, वडलीपाड़ा, सुखीमाली, परवाड़ा क्र. 1, परवाड़ा क्र.2, सेमलिया तालाब	6	531.17	1	6
20	लालपुरा, मठमठ, प्रतापपुरा, मोहनपुरा, मातारुण्डी, उन्हालुपाड़ा तालाब	5	385.64	1	6
21	माताजी, चोरबोराली, करड़ावद तालाब	5	1116.70	1	6
22	पंपावती, पनास, सामली, जुनाखेड़ा, पानगरपिपली तालाब	14	1782.16	1	6
23	मोरझिरी, रंगपुरा, धनपुरा, उण्डीखाली, पारेटा, मथूरिया, नवापाड़ा तालाब	8	1093.11	1	6
24	तंबोलिया, रूपाखेड़ा, पटेल का नाका, बिजोरी, भूरीधाटी, बेकल्दा तालाब	9	502.77	1	6
25	रूपगढ़, दाड़िया, जुहा, मोई तलाब	8	973.50	1	6
26	ढोलखरा तालाब	5	906.40	1	6
(25) जिला धार					
1	माँही वृहद परियोजना	39	5458.38	4	48

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
2	बरमण्डल, बरखेडा, पटोलिया तालाब	8	798.00	1	6
3	चिचोडिया, फुलगाँवडी, हतोद क्र. 3, सगवाल, रामपुरा तालाब	7	595.00	1	6
4	पिपलीपाड़ा, मगजीपाड़ा, फुलेड़ी तालाब	6	641.00	1	6
5	छाडावद, धुलेट, भानगढ़/सोनगढ़ क्र. 2, सोनगढ़ क्र. 1, पानपुरा, टीमायची क्र. 1/वीरपाड़ा तालाब	8	593.00	1	6
6	खरजुनी, दंतोली, बालोदा/लेडगाँव, आनंदखेड़ी तालाब	10	1155.00	1	6
7	मीण्डा, रूपारेल, मवड़ीपाड़ा, भोपावर, रतनपुरा, सिराखनिया तालाब	6	294.00	1	6
8	सिंदुरिया, आमलीपाड़ा क्र. 1, आमलीपाड़ा क्र. 2 तालाब	6	374.00	1	6
9	बड़वेली, पसावदा, बोदली क्र. 1, बोदली क्र. 2, रूपखेड़ा, मौलाना तालाब	7	617.00	1	6
10	मुहाजा, नरवाली क्र. 1 व 2, पिपरानी, काकड़कुआ, काकड़वाँ, पिपलवा तालाब	6	281.00	1	6
11	इंदिरागांधी, करनपुरा तालाब	5	368.00	1	6
12	जुनापानी, भुरेकुआ, आमला, सेमलीपुरा तालाब	7	442.00	1	6
13	ज्ञानपुरा, मालीपुरा क्र. 1, हरसीगी, चेलाय, चिलूर, माफीपुरा तालाब	7	434.00	1	6
14	सलकनपुर, मानाखाल, बाड़ीय क्र. 1, सुरजपुरा, सीताघाट, अंतराय तालाब	8	467.00	1	6
15	सेमल्दा, उमरिया, तारापुर, अब्दुलापुरा तालाब	10	1814.00	1	6
16	कुंदा तालाब	5	1386.00	1	6
17	पांज, चंदनपाड़ा, रायलपाड़ा तालाब	9	928.00	1	6
18	पिपलीपाड़ा, झिंझारड़ा, ईनायतपुरा, बामनियानाका, जामनियानाका तालाब	8	552.00	1	6
19	भीलकुण्डा क्र. 1, भीलकुण्डा क्र. 2, भीलकुण्डा क्र. 3, आवलिया, पिरघाटा तालाब, संजय जलाशय	6	427.00	1	6
20	भीलबरखेड़ा, खेजलीपुरा, साडपुर, मालीपुरा, सिकारपुरा, हैदरी तालाब	11	507.00	1	6
21	मघापुरा, मगजपुरा, मियापुरा, कुजराद, गलवा, गुन्हेरा तालाब	7	392.00	1	6
22	मानसरोबर तालाब	5	600.00	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
23	गोबिंदपुरा तालाब	5	606.00	1	6
24	महावीर पवित्र सरोवर, हनुमानखेड़ा तालाब	6	652.00	1	6
25	दौलतपुरा, बांमनखेड़ी, पाना, आमलीपाड़ा तालाब क्र. 3 तालाब	10	702.00	1	6
26	खानीअंबा, छटवानी तालाब	7	462.00	1	6
27	आसराकुण्ड, खेड़ा तालाब	5	491.00	1	6
28	बागेड़ी तालाब	10	1433.00	1	6
29	शेरगढ़, कालुखेड़ी तालाब	4	233.00	1	6
30	नया खेखरिया, पलासिया तालाब, कारम डायवर्जन	7	761.00	1	6
31	मंडावती तालाब	6	1295.00	1	6
32	साकल्दा तालाब	6	1700	1	6
33	गंगाजली, कुरींदिया, बंजारी, जामुनझीरी न.1, जामुनझीरी न.2, करवटियापुरा, रावतपुरा तालाब	6	726	1	6
34	कोठडा उ.सि. योजना	6	303	1	6
35	भमोरी, सुलबर्डी, बुहारला, दसाई तालाब	6	442	1	6
36	पेटलावद, टेमरनी, खण्डलाई, उदियापुरा, अम्बा, राजुखेड़ी तालाब	6	743	1	6
37	सिंरोज तालाब	6	1400	1	6
38	देदली, वारीपुरा, अम्बापुरा, बिरपुर, बेलडी तालाब	6	260	1	6
39	धोबरीया, खोर, बलवारी, जामली तालाब क्र.2, बिल्दा पि.अ.वि.	6	602	1	6
40	धनतलाव, मोहनपुरा, साली, जामतलाइ, बडिया, वासली, सातुमरी, जामु, खोजाबुआ तालाब	9	467	1	6
41	जुलवान्या, बापरूद, जलाधारी, सोल्यापुरा, भग्यापुरा, लामटियापुरा, हनुमाननाला, काबरवाँ तालाब	8	543.00	1	6
42	झापडी, अंजनिया, रणतलाव मेहताखेड़ी, वायल, खण्डलाई, पिपली तालाब	7	755	1	6
43	कुरारदा, घरडी, चापडीया नाला, पुनसु, देहलघाटा, खेडलीहनुमान, बिल्दा तालाब	7	425	1	6
44	कुडुजेता, कोहरू, आगर, बाँकी तालाब	6	351	1	6
45	भमोरी, मेरती, बरखेडा, देवझीरी तालाब	6	227	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
46	तलवाडा, भैसलाई, बडग्यार, खरगोन, लोगसरी तालाब	6	298	1	6
47	ननोदा, बडगाँव, जयनगर क.2 तालाब	6	177	1	6
48	चिखल्दा उ.सि.यो.	1	710	1	6
49	खेरवाँ, इमलीपुरा, झाबा, मोगरा, खेरली, रामपुरा तालाब	6	270	1	6
50	तालनपुर, सिलकुआ, बडदा, सुस्तीपुरा, अमलझुमा, कोणदा तालाब	6	575	1	6
51	बडवान्या, रेवडदा, जामदा, भोरकुण्डा, चाकल्या तालाब	6	432.8	1	6
52	किसान, डोंगल्यापानी तालाब	5	274	1	6
53	किराड़िया, खरबर्डी तालाब	6	287	1	6
54	मकोड़ानाला तालाब	1	130	1	6

(26) जिला इन्दौर

1	चोरल परियोजना (मध्यम)	26	3900	3	36
2	बिसाखेड़ी, रतनतलाई, नागपुर, बरलाई, कटकिया, कदवालीखुर्द, सेगवाल, मुरादपुरा, डकाचिया तालाब	10	624	1	6
3	दतोदा, भाटखेड़ी तालाब	2	335.799	1	6
4	चायड़ीपुरा तालाब	4	264.743	1	6
5	यशवंत नगर एवं बरगोन, हासलपुर, कोटियाझिरी तालाब	6	615.685	1	6
6	देपालपुर तालाब	6	931	1	6
7	किशनपुरा, कोटियाझिरी, आकासोदा, नेवरी, रंगवासा, मोहना तालाब	6	500	1	6
8	चांदेर, बेगंदा, छड़ोदा, करजोदा, खजराया, खड़ी तालाब	7	258	1	6
9	नाहरखेड़ी, रामपुरिया बुजुर्ग तालाब	7	573.979	1	6
10	गंगानाला, गढ़ी, पिवडाय, जनकपुरा, बुरानाखेड़ी तालाब	5	263	1	6

(27) जिला खरगोन

1	देजला देवडा परियोजना (मध्यम)	57	9000	7	84
2	वेदा पिक अप वियर, सुल्तानपुरा, पिपल्या तालाब	6	731.000	1	6
3	सुन्देल, भातलपुर, बिरूल, मालखेडा तालाब	4	538.000	1	6
4	टेमला, जैतगढ तालाब	8	972.000	1	6
5	देवला, बलखडिया, सतवाडी तालाब	4	298.000	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
6	अहिरखेडा, बागखेडा, ककडगांव, सस्याखेडी तालाब	6	330.000	1	6
7	मछलगांव, कांझर, उटाखेडा तालाब	4	473.000	1	6
8	अगासिया, नकटी जामली, धनवा, पलासी तालाब	6	512.000	1	6
9	कालघा, बोरगांव तालाब	3	525.000	1	6
10	नवलपुरा तालाब	5	1161.000	1	6
11	देवलिया, करेलीनाला, रतनपुर तालाब	6	810.000	1	6
12	कालापाठा, थरवर तालाब	7	488.087	1	6
13	अपर बलवाडा, अपर सासल्या, आठवाँ, लाल्या, चापड तालाब	11	1038.625	1	6
14	जामन्या, जैठवाय, सुरतिपुरा तालाब	7	813.317	1	6
15	जिरभर तालाब	6	1457.732	1	6
16	लाछोरा, जामन्या, अपर लाछोरा, बालिया तालाब	4	710.258	1	6
17	कोटल्याखेडी, दसोडा तालाब	2	183.832	1	6
18	चन्दनपुरा, रमठान, काकट्टी, काकट्टी, दौलतपुरा, सुअरखोदरी तालाब	13	733.281	1	6
19	हिरापुर, धनकला, सेल्दा, डालची, बामनखली तालाब	8	580.000	1	6
20	गगन तालाब	14	1002.00	1	6
21	पाडल्या, हाथीदगड, प्रेमपुरा तालाब	11	883.00	1	6
22	रूपल झिरी तालाब	3	95.00	1	6
23	धवली तालाब	3	80.00	1	6
24	गोवर्धनपुरा, जामन्या, पालदा, चिनगुन तालाब	9	575.00	1	6
25	सालीपुरा, झाडी, गुजर मोहना, सिरस्या, आवल्या तालाब	12	707.00	1	6
26	मण्डलेश्वर, गवला तालाब	5	483.00	1	6
27	जामन्यापानी एवं जामुनपाटी तालाब	3	242	1	6
28	धामनोदनाला, रेगवा, खडकेल, जलखों कं.2 तालाब	5	325.401	1	6
29	डाबरी, अमर बगवा, बेगंदी, बिलीदड, अम्बादड, नायदड तालाब	6	1024.788	1	6
30	सादक तालाब	16	1799.692	1	6
31	उटावद, सागंवी, जामला तालाब	6	1169.524	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
32	मुगलकचेरी, जलखों, साडली, बारदेवला, बेसरकुण्ड, कथारिया तालाब	11	641.795	1	6
33	बिठेर, गवला, गुजारी, बरसलाय तालाब	8	315.022	1	6
34	अम्बकनाला एल.बी.सी. तालाब	9	999.987	1	6
35	अम्बकनाला आर.बी.सी. तालाब	7	750.000	1	6
36	जलज्योति, टेमरनी, अपर जामला, कुण्डिया, गुजारी नं. 2, खेडी तालाब	10	507.000	1	6
37	बहादुरपुरा, अहिल्यापुरा, ढाबा, हिरापुर, सादडबन, डोमारा तालाब	7	484.152	1	6
38	गाडीगलतार तालाब	12	1157	1	6
39	भगवानपुरा पिक अप वियर/बाणगंगा तालाब	4	717	1	6
40	जुनापानी, मोमदिया तालाब	4	484	1	6
41	गाडाघाट, मोघन, रेटवा तालाब	6	307	1	6
42	मेनगांव, गुवाडी तालाब	4	400	1	6
43	वनिहार पिक अप वियर	12	1450	1	6
44	आदमपुरा तालाब	6	400	1	6
45	चौदगड तालाब	4	470	1	6
46	बघईमाता, छोटी उन तालाब	3	273	1	6
47	नन्दगांव, रजून, झिरन्या, पान्यादड तालाब	4	399	1	6
48	उन, डेहरी, कमोदवाडा तालाब	3	219	1	6
49	सेगांव नं. 1, सेगांव नं. 2, भीकारखेडी, विरला तालाब	10	1554	1	6
50	भडवाली, गोलवाडी, उपडी तालाब	6	579	1	6
51	सिलोटिया, डालकी तालाब	2	130	1	6
52	डेहरी नं. 2 तालाब	8	850	1	6
53	गवलान तालाब	3	950	1	6

(28) जिला बडवानी

1	वेरवाड़ा, औसाड़ा, छोटी सेमली, सेमली, अम्बाफल्या, लिम्बी तालाब	6	613 000	1	6
2	नानी बडवानी, आमलियापानी, अंजराड़ा नं.1, केकडिया तालाब	4	252 000	1	6
3	गंधावल, वेगलगांव, सिपाईदुवाली, सिंधीखोदरा, धमारिया तालाब	6	302 000	1	6
4	सुस्तीखेड़ा, सुखपुरी, केली, डॉंगरगांव तालाब	4	266 000	1	6
5	नूकटीमाता, पनलसुद, जूनापानी तालाब	4	449.000	1	6
6	रणजीत, बालकुआ तालाब	3	501.000	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		ग्राम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
7	बिलवानी, बगदलवाड़ी, मटली, उपला, मोरानी, दानोद तालाब	6	409.000	1	6
8	सालखेड़ा, नरावला, उंची तालाब	5	804.264	1	6
9	नन्दगांव, हाथीखोह, खड़कल, हरिबड तालाब	4	277.000	1	6
10	सेगवाल तालाब	10	747.000	1	6
11	खुरमपुरा, कुण्डमाल, जामन्या तालाब	6	162.980	1	6
12	ठान नं.1, 2, सांगवी क्रं.1,2, धितावल, तेल्यानाला तालाब	3	359.124	1	6
13	भोरवाड़ा, हलदड, रूई, छोटी खरगोन, रोझानी तालाब	7	606.000	1	6
14	बालसमुद, टाकली, पानवा, गव्हा तालाब	6	436.000	1	6
15	खड़की, नानीझिरी, झाकर, गवाड़ी तालाब	9	148.978	1	6
16	पिपलधार, अंजनगांव पि.अ.वि., सेगवी, बोरली तालाब	11	444.079	1	6
17	चाचरियापाटी, सुरानी, चितराई तालाब	3	208.000	1	6
18	चुल पि.अ.वि, खारिया, किरमला, कोलकी तालाब	4	315.150	1	6
19	चिचल्या, जेतपुरा पि.अ.वि., मनकुई, रामपुरा, वांगर, मोयदा तालाब	7	501.071	1	6
20	कांसेल, भामी, चौकी, टेमला तालाब	9	532.338	1	6
21	जामपाटी, लवाणी तालाब	6	400.000	1	6
22	जाल्यापानी तालाब	4	381.000	1	6
23	देवधर, गौरीखेडा तालाब	7	594.826	1	6
24	बडगांव, कानपुरी तालाब	4	433.000	1	6
25	रलावती तालाब	12	1345.000	1	6
26	पिसनावल, झिरीजामली, हर्षनगर तालाब	3	427.000	1	6
27	जलगोन, किसमरी तालाब	4	325.000	1	6
28	सालीकला, छोटी नागलवाड़ी, पाडला तालाब	6	372.000	1	6
(29) जिला खण्डवा					
1	भगवंत सागर (सुक्ता) वृहद परियोजना	71	12439.790	9	108
2	सैदाबाद, जामधड, मदरानी, डाभिया, लंगोटी, सिरालिया, पटाजन, दगडकोट तालाब	8	732.47	1	6
3	मिललिया, अंबाखाल टिमरनी, अंबाखाल, जामनिया, टिगरिया, ब्रम्हदड, दमदमा तालाब	8	539.32	1	6
4	संदलपुर, सुकवा, सालियाखेड, अशरफनगर, रजूर, गंगापा एनि, खेरी, मांझरी एनि.	8	657.97	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
5	कोहदड तालाब	1	182.83	1	6
6	टाकलखेड, कारपुर, छिरवा तालाब	3	233.04	1	6
7	चिराखान, करौंद तालाब	2	258.39	1	6
8	देशगाँव क. 1, छिरवेल तालाब	5	235.24	1	6
9	डाभी, पंधाना तालाब	2	114.99	1	6
10	भोकरिया तालाब	5	198.99	1	6
11	पलसियापानी तालाब	1	136	1	6
12	बामझर तालाब	1	88.68	1	6
13	मानपुरा, गंगापाट, गुलरढाना, मीरपुर तालाब	4	315.68	1	6
14	खेडी, सिवना तालाब	2	637.86	1	6
(30) जिला राजगढ़					
1	छापी तालाब (मध्यम)	12	1968	1	12
2	कुशलपुरा तालाब (मध्यम)	33	4330	1	12
3	कुवंर चैनसागर तालाब (मध्यम)	20	3448.217	1	12
4	कस्तुरीपुरा, सुवाहेड़ी, संवासड़ा, टांडी, टांडीखुर्द तालाब	8	915	1	6
5	छापनी तालाब	4	304	1	6
6	खारखेड़ा, धामन्या, फतेपुर, कटारमलजी, देवरी, बोरदाखुर्द तालाब	7	796	1	6
7	देवपुर, अमानपुर, जेयसिंह पुरा तालाब	4	374	1	6
8	बांसखेड़ा तालाब	4	466	1	6
9	पीपल्या कला तालाब	7	785	1	6
10	घोघटपुर तालाब	3	510	1	6
11	सूरजपुरा, बामलाबे, कलालपुरा, सिरौंजी, रावतपुरा तालाब	10	674	1	6
12	पाड़ल्याखेड़ी तालाब	5	700	1	6
13	गोकुलपुरा, चौतरा तालाब,	6	776	1	6
14	जूनापानी, धनवासकला, बहादूरपुरा, कंवरपुरा तालाब	11	619	1	6
15	जोड़क्या, बाजपुरा, बांसखो, मानियापुरा, कानबे तालाब	19	999	1	6
16	खैरासी, चांदपुरा, धोबीपुरा, अताईखेड़ा, कोलूखेड़ी तालाब	10	604	1	6
17	सादलपुर, शंकरपुरा तालाब	5	282	1	6
18	मोटाखोयरा, खारखेड़ा, अहिल्यापुरा तालाब	3	252.931	1	6
19	भीकनपुर, मूण्डल लोधा तालाब	3	273	1	6
20	गुलावता तालाब	3	190	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
21	धामन्या, डेन्डी, ढबलीखुर्द, गणेशपुरा, रूपाहेड़ा तालाब	6	1014	1	6
22	बावड़ीबेह, रूघनाथपुरा, भूमरिया, सड़ियाकुआं, जगन्नाथपुरा, चांदतलाई तालाब	7	728	1	6
23	गोरखपुरा तालाब	4	700	1	6
24	डोब, बिलोड़ा, श्यामपुरा, जूनापानी, गादिया, बावड़ीखेड़ा तालाब	12	764.12	1	6
25	बिसोनिया, नापानेरा, नारायणपुरा तालाब	10	731.168	1	6
26	आगर-आगरी, मलावर, बाईहेड़ा, पगारा तालाब	9	694.439	1	6
27	शमशेरपुरा तालाब	6	1032.283	1	6
28	तुलसीपुरा, मानर्का तालाब	4	315.766	1	6
29	झरखेड़ा तालाब	2	170	1	6
30	नालझिरी, देवरीखेड़ा तालाब	6	256.978	1	6
31	बड़ोदिया तालाब	5	910.716	1	6
32	बाण्डाबेदरा, सराना तालाब	6	343	1	6
33	हैदापुरा, विजयगढ़, हिनोती तालाब	10	520	1	6
34	जामोनिया राव, सीका, तिनोनिया, मण्डावर, मानपुरा गुजराती तालाब	8	525.111	1	6
35	कुदाली, निपानिया गढ़ी, शंकरपुरा तालाब	4	378	1	6
36	मोतीपुरा तालाब	4	202	1	6
37	टोंका तालाब	2	345.000	1	6
38	उमरेड़ तालाब	1	185.000	1	6
39	पालाबेह तालाब	2	288.000	1	6

(31) जिला विदिशा

1	सम्राट अशोक सागर वृहद परियोजना	138	23384	13	156
2	केथन मध्यम सिंचाई परियोजना	8	3187.547	2	24
3	नरेन मध्यम सिंचाई परियोजना	17	2834.479	2	24
4	कोचा मध्यम सिंचाई परियोजना	8	1619	1	12
5	जवारी तालाब, सांकलोन तालाब	7	490.00	1	6
6	जाजौन तालाब	13	1215.00	1	6
7	फूफेर तालाब योजना	4	308	1	6
8	भावनखेडी, घटैरा, मुरादपुर तालाब	4	578.418	1	6
9	वर्धा तालाब योजना	1	530.315	1	6
10	पुराघटैरा तालाब योजना	5	567	1	6
11	जम्बार तालाब योजना	4	235.068	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
12	घोसुआ तालाब	4	263.00	1	6
13	दानमढी तालाब	5	769.00	1	6
14	रूसिया, रूसल्ली साहू तालब	6	436.00	1	6
15	गरैठा, अहमदाबाद खिल्ली तालाब	11	2000.00	1	6
(32) जिला भोपाल					
1	कलियासोत जलाशय (मध्यम)	27	2452.42	2	22
2	केरवां जलाशय (मध्यम)	28	2636.52	1	10
3	गरेठिया, लंगरपुरा जलाशय	11	1543.307	1	6
4	मनीखेड़ी, कल्याणपुरा, मैनापुरा जलाशय	10	800.017	1	6
5	करोदिया, कादमपुर, नामदारपुरा जलाशय	5	308.787	1	6
6	कालापीपल जलाशय	10	1869.784	1	6
7	घोड़ापछाड़, हथाईखेड़ा जलाशय	4	989.837	1	6
8	अजनाल पिकअप वियर	3	469.497	0	2
9	चंदेरी, सेमरी जलाशय, चांचेड़ बैराज	5	1221.706	1	6
10	परवलिया बैराज, ईटखेड़ी, तुमड़ा जलाशय	2	423.890	1	6
(33) जिला सीहोर					
1	कोलार परियोजना (वृहद)	143	34969.537	21	252
2	बारना परियोजना (वृहद)	45	11585.949	5	60
3	दोराहा जलाशय (मध्यम)	15	2794	4	48
4	बनेठ मध्यम उद्वहन सिंचाई योजना	26	8013	4	48
5	रामपुराखुर्द जलाशय (मध्यम)	22	2100	4	48
6	ग्यारसपुरा, खाईखेड़ा जलाशय	6	484	1	6
7	सीलखेड़ा जलाशय	5	532	1	6
8	जमुनिया, रायपुरा जलाशय	6	769	1	6
9	सलकनपुर तालाब		287.286	1	6
10	खाण्डाबड़ एवं तालपुरा तालाब		371.165	1	6
11	कुश्मैली तालाब		259.01	1	6
12	मांझीखेड़ी तालाब	5	510	1	6
13	भगवानपुरा, लोटिया, बरखेड़ी तालाब	4	504	1	6
14	सतपोन, बरखेड़ी तालाब	2	300	1	6
15	झालपीपली जलाशय	1	162.611	1	6
16	झरखेड़ा, लालयाखेड़ी, कुण्डीखाल जलाशय	4	179.064	1	6
17	हालयाखेड़ी, हम्मतपुरा जलाशय	4	226.001	1	6
18	विनायकपुरा, भाउखेड़ी जलाशय	8	249.001	1	6
19	रूपदी, रामदासी जलाशय	5	301.895	1	6
20	कालापीपल, अपरबोरदी, बोरदी जलाशय	6	511.098	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		ग्राम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
21	कोनाझिर, रसलपुरा जलाशय	7	284.005	1	6
22	शिकरपुर, नीबूखेड़ा जलाशय	2	284.203	1	6
23	इछावर, ढाबलामाटा, रामपुरा, बरखेड़ा जलाशय	5	609.451	1	6
24	लसूडियाकान्हेर, गुराडिया, पांगरा जलाशय	9	631	1	6
25	चैनपुरा, घैंधी जलाशय	6	451.193	1	6
26	मूडला, उमरखाल, हरसपुरा जलाशय	7	362.872	1	6
27	कांकरखेड़ा जलाशय	4	698.82	1	6
28	टिटोरिया तालाब	2	210	1	6
29	झीकड़ी तालाब	3	211	1	6
30	मैना प्रथम, मैना द्वितीय, सेवदा, फूडरा तालाब	3	502	1	6
31	झरखेड़ा गुआ तालाब	1	222	1	6
32	भौरा, भौरा तालाब	5	636	1	6
33	बागेर, बसूलियाभाटी, गुराडिया रुपचंद तालाब	8	484	1	6
34	छापर, सिद्धिकगंज तालाब	5	505	1	6
35	छीपानेर उ.सि.यो.	4	810	1	6

(34) जिला रायसेन

1	बारना परियोजना (वृहद)	203	41926.73	20	240
2	सम्राट अशोक सागर वृहद परियोजना	30	4676	3	36
3	कलियासोत जलाशय (मध्यम)	2	450.395	0	2
4	केरवा जलाशय (मध्यम)	5	757.892	0	2
5	अजनाल पिकअप वियर	6	1386.584	1	4
6	बन्छोड तालाब	9	1417.48	1	6
7	करमेदिया, पिपलई तालाब	10	1112	1	6
8	पग्नेश्वर उदवहन	9	1740	1	6
9	अमरावद तालाब	5	465.84	1	6
10	माखनी-गुलगांव, चोंदना, मउपथरई सिंचाई योजना	8	741	1	6
11	लोवर पलकमती तालाब	4	480	1	6
12	दाहोद तालाब	12	1362	1	6
13	रातापानी तालाब	12	1755	1	6
14	ब्रबटपुर तालाब	2	242.24	1	6
15	धामधूसर तालाब	5	485.925	1	6
16	भीमवाटिका तालाब	5	377	1	6
17	नगरी तालाब	4	227.71	1	6
18	अपर पलकमती तालाब	7	1300	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
19	मोधा तालाब	6	1272.09	1	6
20	रामपुरा तालाब	3	253.35	1	6
21	जुझारपुर तालाब	5	431.53	1	6
22	पड़रिया तालाब	2	167.49	1	6
23	सूदा, परसौदा तालाब	2	427.17	1	6
24	लोअर संग्रामपुर तालाब	4	320.27	1	6
25	गुन्दरई तालाब	2	121	1	6
26	आशापुरी, सागर तालाब	4	427.35	1	6
27	अम्बाई, नयापुरा, सोडरपुर तालाब	3	319.08	1	6
28	बढवाई, चपलासिर नवीन तालाब	4	506	1	6
29	पिपलिया गोली तालाब	2	354	1	6
30	कालाझोरा, खमरिया निमावर घाट पिपालिया तालाब	5	507	1	6
31	मुडियाखेड़ा तालाब	5	785.59	1	6
32	पटी तालाब	4	170	1	6
33	बासांदेही तालाब	3	288	1	6
34	उमरखोह तालाब	2	168	1	6
35	कीरतपुर तालाब	3	248.15	1	6
36	खमरिया चांदोरा तालाब	3	229	1	6
37	केवलारी तालाब	6	280.29	1	6
38	मनकापुर तालाब	2	142	1	6
39	उंचाखेड़ा तालाब	3	465	1	6
40	कुकरा तालाब	3	361	1	6
41	बरखंदा तालाब	2	138	1	6

(35) जिला बैतूल

1	सांपना जलाशय (मध्यम)	17	4097.64	3	36
2	बुंडाला (मध्यम)	24	3468.847	2	24
3	चंदोर (मध्यम)	16	2768.14	2	24
4	कुर्सी, खामला, कौडिया, कौडी जलाशय	7	1258.000	1	6
5	बोरगांव, कोलगांव, जुनावानी, जामझिरी, भीकुंड जलाशय	11	887.000	1	6
6	कोसमी, जगधर, खंडारा, झाडेगांव, झाडेगांव जलाशय	5	6.000	1	6
7	पचाम, पाढर, मालसिवनी, झारकुंड जलाशय	8	7.000	1	6
8	कुंड, चिखली, धनोरा, भीमपुर, लक्कड़जाम, जितूढाना जलाशय	11	969.000	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
9	डोड जाम जलाशय, पालंगा, डोडरा, नहरपुर बैराज	5	535 000	1	6
10	कोलगांव, अपर जावरा, सेहरा, गौडीगौला जलाशय	7	766 000	1	6
11	जोगली, खोखरा, चूडिया, देवपुर जलाशय	8	416 530	1	6
12	चिलमटेकरी, पहावाडी, पावरझंडा, सालीमेट, डुल्हारगढ जलाशय	12	1136 000	1	6
13	टेमरु, गोलाई, गेपीनाथपुर, सालीवाडा, दुल्हारा जलाशय	11	1154 000	1	6
14	गौडीढाना, शोभापुर, माथनी जलाशय	8	377 000	1	6
15	बादलपुर, पूंजी, बटकीडोह, बटकी जलाशय	6	396 000	1	6
16	रानीपुर जलाशय	10	1396 420	1	6
17	झगडिया, उर्डदन, बोरगांव दो, गौलीबरगी, रावनवाडी जलाशय	14	841 770	1	6
18	गोधना, पाठाखेडा जलाशय	8	1201 960	1	6
19	निशाना, मोतीढाना, बुडडी, पाठई, बरेठा, देशावाडी, हाथीकुंड जलाशय	14	1342 000	1	6
20	सीकनपाट, रामजीढाना, मच्छी, धनगांव, पिपरिया जलाशय	9	1060 000	1	6
21	मारु, गुनघाटी, चिल्कापुर जलाशय	10	1383 000	1	6
22	सोनखेडी जलाशय	7	898.884	1	6
23	दुनावा, खल्ला, सौंडिया, कपासिया, परसठानी जलाशय	6	556.130	1	6
24	माथनी, सेन्द्रया, करपा जलाशय	6	434.920	1	6
25	चिखली, खैरवानी, वर्धा, हिवरा, बाड़ेगाव जलाशय	10	671.649	1	6
26	डोब, पिपरिया, डहुआ, बघोली जलाशय	7	558.624	1	6
27	खड़आमला, पिसाटा, सूखाखेडी, मायकासरा, साईखेडा जलाशय	3	945.120	1	6
28	जंबाडी, झिरीखापा, उभारिया जलाशय	10	601.079	1	6
29	देहगुड़ जलाशय	3	1216.100	1	6
30	पोहर, हुमनपेठ, साबडी जलाशय	7	788.310	1	6
31	परसोडी, बोरगांव, इटावा जलाशय	6	646.852	1	6
32	छोटी अमरावती, बिसनूर, शेरगढ, पांढरी, झिरी जलाशय	3	789.168	1	6
33	मोरखा, टूराबोरगांव, बाबरबोह जलाशय	3	461.310	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
34	लालावाड़ी, जमदेही, लाखापुर, रमली सावरिया जलाशय	8	518.536	1	6
35	ससुन्दा, मलकोटा जलाशय	8	550.999	1	6
36	पचधार, राबड़िया, रगड़गांव जलाशय	6	532.571	1	6
37	पुसली, ठानी, गुजरमाल, मांडवी जलाशय	9	665.000	1	6
38	बाकुड़ जलाशय	6	1470.665	1	6
39	खैरवाड़ा, कालडोंगरी, ठेमगांव, सिरजगांव, गुदगांव जलाशय	8	615.515	1	6
(36) जिला हरदा					
1	तवा परियोजना (वृहद)	330	76177.220	49	588
2	इमलीढाना, जामन्या तालाब	15	1869.000	1	6
(37) जिला होशंगाबाद					
1	तवा परियोजना	622	135669.300	79	948
2	गुडडीखेड़ाजलाशय	3	244.546	1	6
3	आमादेही जलाशय	4	365.956	1	6
4	सारादेही, चिचवानी जलाशय	4	713.725	1	6
5	डाडीवाडा, बसानिया, कासदा, तामुनडोल जलाशय	4	419	1	6
6	भमकापुरा, कुबडाखेडी, पथरोटा जलाशय	4	282	1	6
7	सिलवानी उद्वहन सिंचाई योजना	2	325.9	1	6
8	बारधा उद्वहन सिंचाई योजना	1	354.681	1	6
(38) जिला कटनी					
1	बहोरीबंद जलाशय (मध्यम)	28	4888.24	3	36
2	सिमरार जलाशय	17	2114.95	1	6
3	दतला जलाशय	11	1443.29	1	6
4	अमहेटा जलाशय	12	1359.94	1	6
5	सुरखीपोडी जलाशय	9	1402.98	1	6
6	पिपरौध, जरवाही जलाशय	5	922.67	1	6
7	झिरगिरी, भजिया, झापी, पहरूआ जलाशय,	9	1394.2	1	6
8	भितरीगढ जलाशय	8	1250.6	1	6
9	बोरीना, पवरा, पाली, गुरजी, गोदाना जलाशय	13	1658	1	6
10	सिमराकुदरी, हरदवारा, इमलिया, देवलिया जलाशय	6	912	1	6
11	गोरहाबंधा, वसुधा, सुगवा, चिखला, पलोडी, अहिरगांवा, बरेहटा, भरतला जलाशय, धोरसी, देवरी रेग्यू	17	1615.2	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
12	घिनौची, बोल्हा, करहिया, लक्ष्मणसागर, कुम्हरवारा जलाशय, श्रीबांध योजना	8	1036	1	6
13	खितौली जलाशय	7	1690.89	1	6
14	जगुआ, बेतगंगा, गुरेहानाला जलाशय	5	1166.01	1	6
15	खजुरा रेग्यू, पथरेहटा, गुरेहापिपरा जलाशय	6	925.63	1	6
16	सिजहनी, सकरीरजरवारा, मुहास, घुनसर, इनदरदेवसरी जलाशय, जटवारा रेग्यू, डिटवारा रेग्यू	8	1071.27	1	6
17	अमाड़ी, बसाड़ी, लोखान जलाशय	11	1682.81	1	6
18	सकरवारा, खलरहा जलाशय	14	1998.62	1	6
19	छपर्, मसंधा, सलैया जलाशय	10	1078.52	1	6
20	देवरी, कोडिया, पडवार, सिलपुरी जलाशय	14	1332.97	1	6
21	धरवारा जलाशय, डोहली रेग्यू	5	787.56	1	6
22	चन्दोल, सांरगपुर, झिरी, प्राचीताल जलाशय	11	1625.01	1	6
23	सागौना, छाहर, जामुचुआ जलाशय, सिंघनतलाई यो.	13	1330	1	6
24	सर्रा, मालहन, मगरहटा, देवरीहटाई जलाशय	9	1021.61	1	6
25	पोडी पडरिया, घंघरी जलाशय,	2	718.67	1	6
26	रामपाटन, रूपनाथ, बंदरचुआ जलाशय	10	718.67	1	6
27	हिनीती, जुझारी कल्लैया, शांतिनगर जलाशय	10	1384.65	1	6
28	करौंदा, सिमरहा, बिजौरा, छनगवा, गोरा जलाशय	9	514.85	1	6

(39) जिला जबलपुर

1	मेहगांव टोला जलाशय (मध्यम)	12	1708.57	1	12
2	बरनू जलाशय (मध्यम)	16	1786.78	1	12
3	मड़ई जलाशय (मध्यम)	19	2233.00	1	12
4	बहोरीबंद जलाशय (मध्यम)	2	649.11	1	12
5	तिलहरी, केवलारी, पुरवाटोला जलाशय	6	292.58	1	6
6	पटपरा, कोयलमुही, मेहगाव जलाशय	8	810.06	1	6
7	हरदुली, झिरिया, बैरागी, डोली जलाशय	7	588.00	1	6
8	बुधी, सरौली, तिलसानी, पिटकुही, झिरपानी जलाशय	11	424.00	1	6
9	बरगी, घुटेही पिकअप, दिनारी, खम्हरिया बसखेड़ा, घुटेही जलाशय	6	441.42	1	6
10	हटौली, नरेला जलाशय	4	162.00	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
11	मोहारी जलाशय	5	835.00	1	6
12	बड़ेरा जलाशय	5	702.00	1	6
13	लोढ़ी, पिपरिया, इन्द्रदमन, चूरिया, मरहापाठा, सिलुआ जलाशय	6	460.84	1	6
14	ककरहाई, पनागर, छतरपुर जलाशय	6	574.61	1	6
(40) जिला नरसिंहपुर					
1	चिरचिटा, गौरतला, परमहंसी जलाशय	8	635.00	1	6
2	नादिया, नगवारा जलाशय	4	659.00	1	6
3	बाबरिया, डुगरिया, मुगवानी, कन्हारपानी जलाशय	5	503.00	1	6
4	किशनपुर, बंधी, केरपानी, दाताडोगरी जलाशय	8	651.00	1	6
5	रिछई जलाशय	4	732.00	1	6
(41) जिला मंडला					
1	थांवर जलाशय (वृहद)	57	10376.69	8	96
2	मटियारी परियोजना (मध्यम)	74	9459.12	8	96
3	बिछिया जलाशय (मध्यम)	22	2346.42	4	48
4	धुआधार जलाशय (मध्यम)	7	1423.55	1	12
5	मझगांव जलाशय (मध्यम)	19	1617.78	1	12
6	बिनेका, सेमराखपा एनीकट, जंतीपर, देवरी कंगी जलाशय	9	1119.52	1	6
7	नारायण गंज, बरबसपुर, मवई जलाशय, बकौरी एनीकट	14	896.31	1	6
8	मोहगांवमाली बोरिया एनीकट, चिखली, कुडवन, जमुनिया जलाशय	6	906.05	1	6
9	भाईनाला एनीकट, सेरमी, खहारिया जलाशय	4	433.00	1	6
10	पीपरी, कोको, गुरली, बहेरा जलाशय	4	386.00	1	6
11	हृदयशाह, मेहरा सिवनी जलाशय	14	519.22	1	6
12	कोहनी, चरगांव, चिखली, पौगडी जलाशय	7	815.97	1	6
13	खापा, बीजाडांडी, धनवाही, लावर जलाशय	7	610.40	1	6
14	बीजेगांव, बरबसपुर, ग्वारा, कुडामैली कुबरीकला जलाशय	15	814.97	1	6
15	निधानी, पलेहरा, मलवाथर जलाशय	6	340.50	1	6
16	झण्डाटोला, राकहानाला चाबी, बनियातारा जलाशय, बनियातारा एनीकट	9	746.00	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
17	जुनावानी, बनेहरी, घुघरी, कंडरा, डोगर मंडला जलाशय	5	553.00	1	6
18	पाटन, पौण्डकला, सुरेहली, ककनू जलाशय	5	418.00	1	6
19	सिमरिया, कोहरी, रमगढ़ी जलाशय, जहरमऊ एनीकट	6	415.93	1	6
20	भंटगांव, भलवारा, मोहपानी जलाशय	6	435.66	1	6
21	देहरा, मानेगांव जलाशय	5	247.47	1	6
(42) जिला डिंडोरी					
1	सारसताल, टिकरा, भवरखण्डी, गोयरा जलाशय	11	991	1	6
2	डांडविदयपुर एनीकट, लमानटोला, गोपालपुर, घानामार जलाशय	10	1146	1	6
3	डिण्डोरी, रहंगी, रयपुरा, लाखों जलाशय, लाखों रेग्यूलैटर, जमुनिया एनीकट, चदुआ हाई लेवल टैंक	13	596	1	6
4	अमरपुर, बहेरा, बरगाटोला, पाखाटोला जलाशय, भाखा डायवर्सन योजना	12	887	1	6
5	मोहदा, पड़रिया जलाशय, भाजीटोला एनीकट	9	839	1	6
6	बरगांव, नेवसा, रनगांव जलाशय, किकरिया रेग्यूलैटर	7	746	1	6
7	सुनियामार, गीधा, सुरसाटोला जलाशय, बोंदरनाला, लबेदा एनीकट	11	493	1	6
8	ढोंढ, दुल्लोपुर जलाशय, तरच एनीकट	6	751	1	6
9	ग्वारा, लालपुर, रतना जलाशय	5	338	1	6
10	पड़रिया, चौरा, मोहरा पहरुआ, कछारी जलाशय	15	921	1	6
11	टिकरिया, डोभी जलाशय, संग्रामपुर एनीकट	8	406	1	6
12	कोहानी देवरी, धनगांव, सरई, बस्तारा जलाशय	10	356	1	6
13	उमरिया, कुटदर, देवरी, दल्काबंदा, बडझर जलाशय	14	704	1	6
14	फतेहपुर, खजरीटोला, कुकरा जलाशय	9	907	1	6
15	उच्चार, टिकरिया, भरद्वारा, पाकर बघरी, सारंगपुर पड़रिया जलाशय	10	1955	1	6
16	धुरा, गोरखपुर, रकरिया जलाशय	8	1405	1	6
17	बंजरटोला, भगनवारा, मुरता जलाशय, खुडिया डायवर्सन स्कीम	10	1082	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
18	बरगी, देवलपुर, केवलारी जलाशय	4	320	1	6
19	करौंदा, बिलाईखार, खरगहना जलाशय	5	285	1	6
20	रामनगर, पिण्डरुखी जलाशय, नीमटोला डायवर्सन स्कीम, करनई नाला एनीकट	10	838	1	6
21	राछो, नागदमन, धुण्डीसरई, चंदवाही जलाशय	8	848	1	6
22	कहिंजरा, सरवाही, कोडिया जलाशय	3	250	1	6
23	दनदना नाला जलाशय	10	1950	1	6
(43) जिला छिंदवाड़ा					
1	कन्हरगांव जलाशय (मध्यम)	12	2795	1	12
2	काराबोह, पोआमा जलाशय	5	457.55	1	6
3	बरगोना जलाशय	4	343.89	1	6
4	शिवलालढाना जलाशय	4	216	1	6
5	उमारिया दलेल जलाशय	4	384.92	1	6
6	कोटलबर्डी, बीजेपानी जलाशय	3	814.84	1	6
7	खापाबिहारी, गोहरगांव जलाशय	4	622.89	1	6
8	कोहपानी जलाशय	4	459.47	1	6
9	चाखला जलाशय	4	385.33	1	6
10	उमरानाला जलाशय	5	1066.13	1	6
11	राजढाना जलाशय	3	467.49	1	6
12	हरई, नांदना, कोकनपिपारिया जलाशय	10	1180.08	1	6
13	माडवी, घूडनखापा जलाशय	7	910.13	1	6
14	मुआरसानी जलाशय	3	213.98	1	6
15	बोरगांव, खोरी, जामलापानी जलाशय	4	452.34	1	6
16	किसनपुर जलाशय	4	244.72	1	6
17	कान्हा, डोलापंजरा जलाशय	3	378.19	1	6
18	तवा, छुई, हरनभटा जलाशय	9	1173.18	1	6
19	घोघरी, हिवरासनी जलाशय	6	297.49	1	6
20	देवखोह जलाशय	7	740.38	1	6
21	बांगई, हरसदिवारी, तामिया जलाशय	7	643.19	1	6
22	नवेगांव जलाशय	5	353.97	1	6
23	उमरिया जलाशय	2	241.18	1	6
24	देवगांव, मानेगांव जलाशय	6	989.08	1	6
25	मोही, भडारगाँदी जलाशय	4	488.29	1	6
26	रिंगनखापा, बिछुअसानी जलाशय	4	635.84	1	6
27	टेमनी, हिवरासेनेडवार जलाशय	3	656.93	1	6
28	चांगोबा, ढोलनखापा जलाशय	4	499.12	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
29	वाध्यनाला जलाशय	10	1237.09	1	6
30	मेहराखापा जलाशय	2	280.81	1	6
31	पिपरियाकलां, सिलोटा जलाशय	4	263.44	1	6
32	डोंगरगांव जलाशय	4	475.1	1	6
33	बधान, पाथरी, गुगतरा जलाशय	3	417.35	1	6
34	कबाडिया, मेढकी, रामगढी जलाशय	6	397.64	1	6
35	पखाडिया, अतरवाडा जलाशय	5	400.4	1	6
36	पुलपुलडोह, पिण्डरईकला जलाशय	5	374.4	1	6
37	मोरडोंगरी जलाशय	1	233.7	1	6
38	कामठी, नारंगी जलाशय	3	226.35	1	6
39	झिरलिगा, गंगई जलाशय	2	200.57	1	6
40	पलटवडा, पाल्हरी, बाकानागनपुर जलाशय	3	200.89	1	6
41	सकरवाडा जलाशय	4	634.87	1	6
42	लोहरा, लिखडी जलाशय	4	463.42	1	6
43	सिंगोडी जलाशय	2	226.8	1	6
44	धनौरा, भुमका जलाशय	2	381.85	1	6
45	कारीडोंगरी, फुटेरा जलाशय	5	264.27	1	6
46	कांगला जलाशय	3	265.29	1	6
47	खैरीपैका जलाशय	1	202	1	6
48	मोहखेडी, जाटलापुर जलाशय	5	509	1	6
49	राजडोंगरी जलाशय	1	208.93	1	6
50	चिरकुटागोंदी जलाशय	4	271.81	1	6
51	सातकीनाला जलाशय	3	482.32	1	6
52	थांवरी, भाजीपानी कलां जलाशय	4	438.84	1	6
53	पालामउ, बुचनई जलाशय	5	375.79	1	6
54	भाजीपानीखुर्द, चारगांव, करबल जलाशय	4	268.8	1	6
55	केकड़ा, नवलगांवतिनफाटा जलाशय	7	529.85	1	6
56	सारोठ जलाशय	8	1127.28	1	6

(44) जिला सिवनी

1	संजय सरोवर परियोजना (वृहद)	194	45873.72	18	216
2	रुमाल जलाशय (मध्यम)	17	2534.3	1	12
3	चीचबंद जलाशय (मध्यम)	11	2078.2	1	12
4	बोरी जलाशय (मध्यम)	18	3078.2	2	24
5	अरी जलाशय (मध्यम)	23	4049.43	2	24
6	सायनरनदी जलाशय (मध्यम)	12	1688	1	12
7	बिजना जलाशय (मध्यम)	16	1809	1	12

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		ग्राम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
8	खटकर जलाशय	7	520.14	1	6
9	गोरखपुर (धनौरा) जलाशय	5	331.02	1	6
10	पिपरिया टोला जलाशय	3	308.21	1	6
11	पिपरिया जलाशय (बर्सा)	3	280.36	1	6
12	आमनाला जलाशय	1	324.00	1	6
13	औरिया जलाशय	6	441.00	1	6
14	मनौरी जलाशय	5	786.00	1	6
15	पायली जलाशय	4	803.13	1	6
16	टोला पिपरिया , पौण्डी जलाशय	5	520.20	1	6
17	प्रतापगढ़, गोरखपुर (अंजनिया) जलाशय	7	527.09	1	6
18	पिपरिया, पीपरताल, कातौली जलाशय	7	781.00	1	6
19	पोटिया जलाशय	13	744.15	1	6
20	बोदानाला जलाशय	14	690.00	1	6
21	धोबीसर्सा जलाशय	15	989.45	1	6
22	बम्होड़ी जलाशय	8	963.00	1	6
23	गौशाला जलाशय	6	793.00	1	6
24	खामखरेली (नवीन), कंडीपार, खामखरेली, बोथिया जलाशय	7	510.77	1	6
25	साल्हे जलाशय	2	247.56	1	6
26	मोहगांव, अतरिया जलाशय	7	756.00	1	6
27	उदयपुर, अमोदा जलाशय	4	660.00	1	6
28	खापा, टिकराखापा, हिरनभटा जलाशय	10	869.00	1	6
29	पिण्डरई, अपरमेहता, तैमूरनाला जलाशय	7	409.00	1	6
30	गुरदानाला, लखनादोन जलाशय	9	994.02	1	6
31	धपारा, बखारी, देवरी, बैगापिपरिया जलाशय	7	704.00	1	6
32	डुंगरिया, सालीवाड़ा जलाशय	5	482.00	1	6
33	कुड्डो, बरेली जलाशय	10	1067.00	1	6
34	अटारी, आमई, खमरिया जलाशय	5	389.40	1	6
35	गंधीला, पथरिया, कुटमैली जलाशय	8	666.00	1	6
(45) जिला बालाघाट					
1	संजय सरोवर परियोजना (दुटी बाँयी तट नहर प्रणाली) वृहद	123	20665.59	12	144
2	दुटी विद्यर की वैनगंगा नहर प्रणाली (वृहद)	156	38285.356	19	226

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
3	बाघ दायीं तट नहर अन्तर्राज्यीय परियोजना (वृहद)	81	17144.173	10	120
4	नहलेसरा जलाशय (मध्यम)	34	5144.387	3	36
5	जमुनिया जलाशय (मध्यम)	27	3296.418	2	24
6	खराड़ी जलाशय (नध्यम)	29	4284.03	5	60
7	सराठी जलाशय (मध्यम)	34	5680.214	5	60
8	मुरुमनाला जलाशय (मध्यम)	16	2796.14	3	36
9	गांगुलपारा जलाशय (मध्यम)	16	2257.474	3	36
10	बकेश, बासी, बोदलकसा नया, बोदलकसा पुराना, खापा, खण्डवा जलाशय	7	615.828	1	6
11	रमरमा, सिरा-1, सिरा-2, बोटेझरी, नगझर, बुदबुदा जलाशय	6	830.488	1	6
12	मुरझड, भण्डारबोड़ी, चोरपिण्डकेपार, दुययापार, शंकरपिपरिया जलाशय	6	844.064	1	6
13	अमई 1, अमई 2, लालपुर, भजियादण्ड, झारिया, चिखलाबांध जलाशय	6	917.633	1	6
14	नवेगांव, आगरवाड़ा, परसवाड़ाघाट, पिपरिया, नान्दी, खजरी, चिकमारा, पाथरवाड़ा जलाशय	9	641.433	1	6
15	बोरीखेड़ा माल, देवरी जलाशय, लिंगापौनार, चांदाखोह, बिछुआ, बोरीखेड़ा रैयत जलाशय	7	906.224	1	6
16	शिव, तेलनबोड़ी, हुड़ीवाला, टोलवारा, अंजनबिहरी, दिग्धा, कोसुम्बा, अम्बेझरी, कुड़टा, भोण्डकी, किसनपुर, कोसमतोला, बड़पानी 1., बड़पानी 3 जलाशय	10	547.724	1	6
17	कटंगी नजूल, बोपली, सावंगी, जराहमोहगांव, नरोड़ी, कोड़मी, वरुड़, लखनवाड़ा, टेकाड़ीभ, जड़खरीद, सतारा, सावंगी, कोसमी, टेकाड़ी जलाशय	12	776.246	1	6
18	हरदोली, बम्हनी, चाकाहेटी, हथाड़ा, गुडरूघाट, येरवाघाट, चोपननाला, पाण्डरवानी जलाशय	11	677.446	1	6
19	कटंगझरी 1, कटंगझरी 2, पिपरिया, टेकाड़ी 1, टेकाड़ी 2, सावंगी जलाशय	6	889.622	1	6
20	कटंगझरी, पिपरिया, बड़गांव, नयातोला, लोहारा, टेकाड़ी जलाशय	9	809.662	1	6
21	धारावासी-1, धारावासी-2, धारावासी-3, मौसमी-2, देवगांव जलाशय	3	429.76	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
		ग्राम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
22	नगपुरा, पढारवानी-1, नगपुरा-2, नगपुरा-3, नगपुरा-4, पाथरसाही-1, पाथरसाही-2 जलाशय	3	710.250	1	6
23	देवगांव, रानीकुठर, पंडरापानी, सिहोरा-1, सिहोरा-2, सिहोरा-3 जलाशय	4	718.00	1	6
24	मोहगांव-1, जाम, मोहगांव-2, खुरपुडी, टेगनीकला, सालेबरी जलाशय	6	777.198	1	6
25	डोगरबोडी, समनापुर, दुगलई, टेकाडी ओरमा, कटेगांव-1, कटेगांव-2, शेरवी जलाशय	8	572.165	1	6
26	रानी, मौरिया, सलंगटोला, कोचेवाड़ा, लामता, मौरिया, कुम्हारी, भोंडवा, कोचेवाड़ा-1, कोचेवाड़ा-2 तालाब	5	642.258	1	6
27	मउ, चांगोटोला, पिण्डकेपार जलाशय, झुरमुर, घुनाडी-1, घुनाडी-2, प्रतापपुर तालाब,	5	470.456	1	6
28	वाराविलेज, नेवारा, अकोला, बेलगांव राना, वाराटार, रमगढी जलाशय	5	475.85	1	6
29	सिंगाडी नाला रेग्युलेटर, लवेरी, कोतरी, कटंगी जलाशय	6	323.41	1	6
30	वाराभेन, कनेरी, हिरी-1, हिरी-2, किरनापुर, बम्हनगांव जलाशय	5	985.39	1	6
31	गरदा, परसवाडा, कुण्डे, सिवनी सागर, तिलपेवाडा, परसपानी जलाशय	8	679.69	1	6
32	मण्डवाझरी, अलीटोला रेग्यू, रानककोडी, कंडरा, कलकत्ता, चतरुटोला, कासपुर, अलीटोला, ककोडी जलाशय	8	747.48	1	6
33	फूटकाचौकी, बम्हनवाड़ा, गदई, खण्डाफरी, हगरबंध, सुलसुली, बाघोटोला, रिसेवाड़ा, लांजी जलाशय	8	1083	1	6
34	रमपुरा, बिसोनी, दुल्हापुर, खजरी, सुनारककोडी, घोटीघुसमारा जलाशय	8	802	1	6
35	रमगढी पिकअप वियर (बायी तट नहर), रमगढी, चिचगांव, सुरवाही, शाखा, दूधी, भटलई, भिमजोरी, चारटोला, नेवरगांव, मुंडघुसरी, टिंगाटोला, मुंडघुसरी, बिठली जलाशय	16	926.774	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
36	रमगढ़ी पिकअप वियर, (दांयी तट नहर), गोवारी, परसाटोला, सायल, चक्रवाही, टिंगीपुर, भण्डारपुर, जानपुर, सारसडोल, बिसतवाही जलाशय	9	972	1	6
37	बलगांव, तरेगांव (आर.बी.सी.), बासिमखार, आमनाला (पुराना), अलना(आर.बी.सी.), बैजलपुर, समनापुर, भिमलाट, बहेराखार जलाशय	12	721.979	1	6
38	तुमड़ीभाट, बन्ना, मसनीनाला, सीताडोंगरी, झारा, मोहबट्टा, रौंदाटोला, तुमड़ीभाट, डुडगांव, सहैजना, झारा जलाशय	12	1227.00	1	6
39	करमसरा, कटियानाला, लोराजगत, मोहगांव, करहूँ, पौनी, नेवरगांव जलाशय	10	823.840	1	6
40	जगला, देवरीभेटा, रैयत ठेकेदारी, गोवारी, सुकतरा, परसाटोला, पल्हेरा, सायल, बाहकल, चकरवाही, टिंगीपुर जलाशय	13	809	1	6
41	सरेखा, बरवाही, नेवरगांव, पद्दीनाला, परसाटोला, जत्ता ठेके, मेंडकी जलाशय	9	1094.00	1	6
42	भिमोरी, आमगांव (पोंगार), आमगांव (पुराना), मोवाला, शेरपार, कोहका, कटंगी जलाशय	8	909.00	1	6
43	भांगरा, सरेखा नं. 01, सरेखा नं. 02, भिलेवानी, गरारी कोरजा, कोरजा दलवाड़ा, दानटोला, तिरगांव मजगांव, सान्डा जलाशय	10	925.00	1	6
44	अहमदपुर, उड़दना, धुवा, ठेमा, भोरवाही, उड़दना चन्दना, घोड़ादही लोटमारा, कटंगा, कोसमी, भीकेवाड़ा जलाशय	10	859.00	1	6
45	जलगांव, जटालनाला, बड़गांव, बघोली, बघोली दलवाड़ा, भीड़ी, बघोली झिरिया, झिरिया पटोरा, कुरेण्डा चकटोला, कुरेण्डा बड़गांव जलाशय	12	790.00	1	6
46	कचनारी, सिंघनपुरी, रमगढ़ी, पिपरटोला, अजगरा, करौदा बेहरा, चीचगांव, सुरवाही जलाशय	9	897.00	1	6
47	राजपुर, लिलामेटा, कोटरीनाला, बादलबेहरा, लूद, खुड्डीपुर केसा, मोहगांव, किण्डगीटोला सिंघई, सोनपुरी जलाशय	9	503.00	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
48	आमानाला, हुडडीटोला, रूपझर, गोदरीटोला, छपरवाही, अमरिया, उमरिया, खमरिया दीनटोला जलाशय	10	829.00	1	6
(46) जिला अशोकनगर					
1	राजघाट नहर परियोजना (वृहद)	16	3070.11	2	24
2	मोला बांध (मध्यम)	14	2074	1	12
3	कोंचा मध्यम सिंचाई परियोजना	10	2208	1	12
4	जमाखेडी, तुलसी सरोवर	7	806	1	6
5	अमाही, बरखेडा छज्जू तालाब	14	1241	1	6
6	मढी कानूनगों तालाब	5	370	1	6
7	ढाकोनी, शाहपुर, नरसूखेडी, श्यामाटोरी, पचलाना तालाब	10	1424	1	6
8	कदवाया, कदवाया फीडर, अनिराय, मुढेरी, सकर्रा, ईदौर तालाब	10	813	1	6
9	वनेट, भरौली, जलेश्वर तालाब	3	307	1	6
10	रामनगर, सिंहपुर चाल्दा, विक्रमपुर, नयाखेडा, मोहनपुर, कुबंरपुर तालाब	11	720	1	6
11	कैथन डायवर्सन योजना	3	597	1	6
12	साजनमऊ, उमरिया, प्यासी तालाब अचलगढ पिकअप बियर	18	950	1	6
(47) जिला अनूपपुर					
1	जोहिला जलाशय	9	1264	1	6
2	बोहिता, छपानी, हर्गटोला, मुथेरटोला जलाशय	6	720	1	6
3	बेनवारी, धुपसरा, करनपटार पालाडिगवार जलाशय	8	698	1	6
4	मुनगाटोला जलाशय	4	406	1	6
5	बागन, नवगवों, गिरवी जलाशय	8	643	1	6
6	लपटी, बटकी, कन्तूर जलाशय	6	740	1	6
7	धनगवों, खांडा, सकरा, नकटी, पकरिया जलाशय, चंदास व्यपवर्तन	6	430	1	6
8	कल्याणपुर, गोधनपाटन, सेमरवार, कदमसरा, रानीसागर जलाशय	6	478	1	6
9	लतार जलाशय, कटना डायवर्सन	4	513	1	6
10	लामाटोला, मनवारी, साजाटोला जलाशय, केवई उद्वहन	6	498	1	6
11	चुल्लियामार, बैगानटोला, देवरी जलाशय	3	278	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
12	अंधियारखोह, जरडा, कुम्हरवार जलाशय	3	313	1	6
13	पयारी जलाशय	3	115	1	6
14	झिरोखा, कोठी जलाशय	4	213	1	6
15	खोड़री जलाशय	2	130	1	6
(48) जिला बुरहानपुर					
1	मोरझिरा, एकझिरा, धामनगांव तालाब	6	1338.9	1	6
2	पिपराणा, हसपुरा, निम्ब तालाब	4	583.43	1	6
3	दुधिया, गुराडिया तालाब	4	237.82	1	6
4	कालापाठ, नांदुराकला, नांदुराखुर्द तालाब	6	992.75	1	6
5	कुम्हारनाला, रूपारेल तालाब	4	1014	1	6
6	संग्रामपुर, सितापुर, अंजनडोह तालाब	7	1204	1	6
7	ईच्छादेवी, बम्भाडा, देव्हारी, मोतियादेव तालाब	4	1318.83	1	6
8	निम्ना, मंगरूल, भौलाना तालाब	4	468	1	6
9	साजनी, परेठा तालाब	4	389.11	1	6
10	खिडकी, कालर, सांवली तालाब	5	741.84	1	6
11	रामपुरा, घनश्यामपुरा, शंकरपुरा तालाब	5	321.77	1	6
12	हैदरपुर, नयाखेडा तालाब	5	422.8	1	6
13	रेहमानपुरा, झिरपांजरिया, ईटारिया तालाब	6	1098.94	1	6
(49) जिला सिंगरोली					
1	कॉचन बाँध मध्यम परियोजना	35	4384	4	48
2	माडी टैंक	25	1665	1	6
3	घडौरा, कनई 1, 2, 3, 4 टैंक	11	191	1	6
4	बगदरा, सुकहर, दंवगांव, पोड़ी, चितरंगी, भर्रा, लरवाँ टैंक	6	742	1	6
5	गर्रा बांध लघु सिंचाई योजना	4	1061	1	6
6	सुहिरा, नादों, बानी, झिरिया, भुताली टैंक	6	1015	1	6
7	रम्पा, बसौड़ा, मझौली टैंक	3	1040	1	6
8	अहिलों, तेलदह, बलुहा, चितरबई टैंक, लौआ एनीकट	8	956	1	6
9	पोड़ी बांध, महुआगाँव टैंक	4	787	1	6
10	बरका, साजापानी टैंक	3	244	1	6
(50) जिला अलीराजपुर					
1	अम्बारी, बड़दला, गडात, गहन, पीथनपुर, थानासेमली तालाब	9	339	1	6
2	बेगडा तालाब बंध क्र. 1, बेगडा तालाब बंध क्र. 2	7	404	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
3	दुधलवाट, कांटी, खंडाला, खारकुंआ, झौरा क्र. 1, झौरा क्र. 2 तालाब	12	401	1	6
4	रोडधा, लखनकोट, अजन्दा क्र. 1, अजन्दा क्र. 2, चिखलकुड़, जवानिया, घोघसा, कुशलवई तालाब	9	497	1	6
5	अधारझिरी तालाब	4	90	1	6
6	गुडा, अठी, इकधरी, आमझिरी तालाब	8	224	1	6
7	मोरधी, चांदपुर, कदवालिया, सोरवा, दरखड़, मेहणी तालाब	12	442	1	6
8	फालियामाड, आम्बा तालाब	2	166	1	6
9	अठावा, सिसवालिया, बड़ी उतावली, आम्बी तालाब	6	191	1	6
10	कथवाड़, बिछौली, अम्बाजा, कोसारिया, जामली तालाब	11	418	1	6
11	सेमलानी, गुनरी तालाब	4	155	1	6
12	मालपुर, खोडम्बा, करवन्दी, गिरघा, करेटी, फाटा तालाब	11	402	1	6
13	मोटाखटाजा, कुक्षी, चन्द्रशेखर आजाद नगर, बोरकुण्डिया, लाड़ीबारिया, सेजावाड़ा नं. 2 तालाब	10	313	1	6
14	उण्डारी, बिलासा तालाब	4	319	1	6
15	नेहतड़ा, खारीसिंधी, देहदला, उम्दा तालाब	7	364	1	6
16	रामपुरा, बड़ागुड़ा, हिरापुर तालाब	8	351	1	6
17	सेवरिया, कोसदूना, कनवाड़ा क्र. 1, उमरी, कोसदूना तालाब	5	303	1	6
18	थापली, बलेड़ी, डेकाकुण्ड तालाब	3	164	1	6
19	कानाकाकड़, डेकलकुआ, मोटाउमर, काटकुंआ तालाब	9	164	1	6
20	डेडरवासा, सियाली क्र. 1, सियाली क्र. 2, कोल्याबयड़ा, वेगलगाँव, धामन्दा तालाब	7	311	1	6
21	भैसावदा, बडकुई, आम्बाखेड़ी, फुर तालाब	8	231	1	6
22	जाबुखेड़ा क्रमांक-1, क्रमांक-2, भूतलखेड़ी, पुवाला, भुतखेड़ी, भुतखेड़ी छावन, सेमलखेड़ी, कस्बा राणापुर तालाब	11	913	1	6
23	कोटबु तालाब	2	65	1	6
24	अमनकुआ, मालवेली, हथनी तालाब	7	266	1	6

अनुक्रमांक	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्यक्षेत्र		जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
		गाम	विस्तार क्षेत्र (हेक्टे.)		
1	2	3	4	5	6
25	सामलाकुण्ड, जवानिया, खेरियामाल, झिरण तालाब	6	254	1	6
26	कनवाड़ा, बरखेड़ा तालाब,	3	174	1	6
27	बड़ाईटारा, छोटा ईटारा तालाब	3	230	1	6
28	कोटारा, पाटबर्डी तालाब	4	118	1	6
29	सोलिया तालाब	1	45 53	1	6
(51) जिला आगर					
1	टिल्लर मध्यम सिंचाई परियोजना	38	5493	2	24
2	कछाल मध्यम योजना	9	1155	1	12
3	नाहरखेडा, देहरिया, श्यामपुरा, चाल्याखेडी तालाब	8	635	1	6
4	गणेशपुरा तालाब	10	1600	1	6
5	बोरखेडी तालाब	3	485	1	6
6	लोलकी तालाब	6	312	1	6
7	पिलियाखाल तालाब	9	1422	1	6
8	बिजनाखेडी तालाब	6	860	1	6
9	कानाखेडा बरखेडी तालाब	4	516	1	6
10	पिपल्याकुमार तालाब	7	1470	1	6
11	लक्ष्मीखेडा तालाब	7	587	1	6
12	परसुखेडी, अमलाबडिया, जोगी बर्डिया, अम्बाबडोद तालाब	6	418	1	6
13	रनायरा केलवा, कछालिया, भ्यानाभूडकी, करवांखेडी, बिजानगरी, सुवागांव तालाब	13	884	1	6

Bhopal, the 23rd July 2016

No.32-18-2016-M-XXXI-567.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, notifies the area of operation specified in column (3) and (4) of the Table below, in relation to the number of Farmers Organization specified in column (5) and for irrigation system specified in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
(01) District Sheopur					
1	Chambal Canal System (Major)	270	57312	22	264
2	Aoda Dam (Medium)	32	8907	4	48
3	Karahal, Patoda, Partwada, Rampura dang, Goojargaondi Tank	5	433	1	6
4	Khirkhiri, Badh, Bhotipura, Morai Tank	4	678	1	6
5	Ratodhan Tank	1	374	1	6
6	Beerpur Tank	7	461	1	6
7	Kota (Chhapar) Tank	8	928	1	6
8	Bardha Tank	14	1457	1	6
(02) District Morena					
1	Chambal Canal System (Major)	709	168003.8	70	840
2	Khiraoli tank	6	1018.17	1	6
3	Dhanela LIS	1	144.513	1	6
4	Tonga tank	8	351	1	6
5	Jawahargarh tank	7	330	1	6
(03) District Bhind					
1	Chambal Canal System (Major)	466	105817	43	516
2	Rajghat Canal Project (Major)	234	35614.7	15	180
(04) District Gwalior					
1	Harshi Project (Major)	274	65237.584	29	348
2	Harshi High Level Canal Project (Major)	56	10283.9	5	60
3	Sindh Project Phase II (Major)	23	7745.37	3	39
4	Kaketo Dam (Medium)	5	2261.85	1	12
5	Ramoua Behta (Medium)	19	3090.300	1	12
6	Udalpada Tank	2	207.74	1	6
7	Jakha Simariya Tank	5	473.37	1	6
8	Jalalpur Parsen Tank	10	893.841	1	6
9	Himmatgarh Tank	4	332.45	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
10	Sita ka Pura LIS	1	203.442	1	6
11	Rehat Tank	5	830	1	6
12	Khudawli Tank	1	200	1	6
13	Karai Tank	1	175	1	6
14	Jakhoda Tank	1	591	1	6
15	Amrol Tank	1	359.889	1	6
(05) District Datia					
1	Rajghat Canal Project (Major)	512	96324.46	59	708
2	Sindh Project Phase II (Major)	67	13701.99	9	104
3	Kharraghat Medium Irrigation Scheme	24	3643.54	3	36
4	Khairi-Larayta Minor Irrigation Project	3	450	1	6
5	Ramsagar, Badoni Tank	4	355	1	6
6	Hathlai, Somla, Jigna Tank	4	674.71	1	6
7	Kasna nala Tank	10	850	1	6
(06) District Shivpuri					
1	Sindh Project Phase II (Major)	130	29268.16	16	193
2	Rajghat Canal Project (Major)	58	16088.89	8	96
3	Paronch Tank (Medium)	10	2196.59	1	12
4	Budhna Tank (Medium)	17	2683.74	1	12
5	Akhajhiri Tank (Medium)	7	1497	1	12
6	Bairad Tank, Bhatnawar Tank, Tora Tank	9	926	1	6
7	Piploda Tank	8	891	1	6
8	Moonjwar, Imaliya Tank, Bhangarh Pickup Weir	7	865	1	6
9	Senwda, Padarkheda Tank	5	790	1	6
10	Bhagora, Budhi Barod, Mohangarh Tank	11	990	1	6
11	Raichandkhedi, Behat, Piparghar, Singhniwas Tank	6	362	1	6
12	Bhensrawan, Digdoli Tank	4	204.82	1	6
13	Kooda, Ramnagar, Banskhedhi, Sateriya Tank	10	652	1	6
14	Jhaloni Tank	7	994.72	1	6
15	Dhapora, Muhari, Harthone Tank	8	684.75	1	6
16	Phootibar, Khod no.1, Semri, Dabiya Govind Tank	8	781.64	1	6
17	Nagda Tank	5	984	1	6
18	Dinara, Algi, Bhev Tank	8	1017	1	6
19	Khiriya Punaoli, Semra, Chinnod Tank	6	514	1	6
20	Dumguna, Narhi, Rajgarh Tank	9	693	1	6
21	Ader, Ramgarha, Berkheda, Gadhai Tank, Karai Stop Dam	11	857	1	6
22	MadhavRao Sarovar (Madhar)	11	1011	1	6
(07) District Guna					
1	Bandiyanalla scheme	9	1734.828	1	12
2	Rampur Tank	41	7546.954	4	48
3	Sanjay Sagar Project	46	5459.92	3	36
4	Mohari, Gopalpura Tank	3	394.454	1	6
5	Sirsi, Ari Tank	5	345.851	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
6	Silavati, Jhamjhara Tank	2	510.007	1	6
7	Sookhanalla Mali Tank	6	523.914	1	6
8	Renjhai Tank	5	274.805	1	6
9	Bhensatori Tank	10	1152.505	1	6
10	Kalora Bandha Tank	4	590.848	1	6
11	Beelakhedi, Khandela Tank	7	446.645	1	6
12	Samarsinga Tank	7	569.000	1	6
13	Dhanwadi Tank	4	125.000	1	6
14	Chachoda Tank	13	853.427	1	6
15	Pipalyakhusal Tank	4	447.400	1	6
16	Ghatakheri Tank	7	716.204	1	6
17	Bhojpura Tank	12	810.0000	1	6
18	Tatujkhedi Tank	10	276.000	1	6
19	Rajiv Sagar Project	17	2000.000	1	6
20	Barod Tank	9	769.395	1	6
21	Aron LIS	7	307.601	1	6
22	Kunwarapura, Dongar Tank	4	195.917	1	6
23	Veerakhedi Tank	9	831.454	1	6
24	Sumeri Tank	14	870.283	1	6
25	Biryai, Kekadiyakhurd, Pagrighata, Solyaveh Tank	9	925.094	1	6
(08) District Tikamgarh					
1	Rajghat Canal Project (Major)	12	2989.65	1	12
2	Rajendra Sagar Tank (Medium)	14	2069.74	1	12
3	Jamni Canal Scheme (Medium)	10	2109.165	1	12
4	Nandanvara Tank (medium)	15	1825.083	1	12
5	Mahendra Sagar, Hanuman Sagar, Deep Sagar, Heeranagar Babri Tank, Manikpura LIS	8	786.316	1	6
6	Astoun, Sunahara, Madumar, Belatal Tank	4	229.58	1	6
7	Prem Sagar, Raira, Mamoun, Sidvkhad, Rigoura Tank	11	597.143	1	6
8	Lar, Laksmanpura, Nanhitehri, Dikouli, Madrakha Tank	4	279.353	1	6
9	Pokhna, Badagaoan, Upatsagar, para, Moukhra, Duda Tank	6	747.431	1	6
10	Barana Bamhour, Gidvasan Tank, Chiroulghat Stopdam	10	798.536	1	6
11	Mohangarh Tank, Pitnoura Lift Scheme	10	849.315	1	6
12	Digouda, Dusyara, Tudyara Tank	6	212.931	1	6
13	Pateriya, Dargany kala, Dargany Khurd, Malpeetha LIS	6	366.145	1	6
14	Kumhedi, Vrashbhanpura, Acharra Tank, Keshvgadh Stopdam	13	886.402	1	6
15	Madansagar Tank	5	910.82	1	6
16	Dharmsagar Tank	10	1692.498	1	6
17	Ghura, Baharu, Kandwa Tank	4	560.037	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
18	Padmasagar, Shahpura, Samdua, Bilvari, Vairvar, Kiratvari, Chaturkari Tank	7	712.598	1	6
19	Kharon, Phuter, Morpariya, Chandra, Bairkinala, Chitanala Tank	7	359.497	1	6
20	Pureniya, Ramnagar, Chutaki, Atrar, Ramsagar, Bandkamurraha, para, Palera Tank	10	739	1	6
21	Madansagar, Ahar, Narayanpur Tank	12	1335.017	1	6
22	Gwalsagar, Vindhvashini Tank	11	1022.866	1	6
23	Sarkanpur, Bhitavar, Balbantpura, Lakhera, Hanumatpura, Khera, Ranital, Bhelsi Tank	12	477.248	1	6
24	Matoul, Phuter Tank	4	249.27	1	6
25	Dhanera, Chhidari, Dadgany, Kotra, Chanderi Tank	6	531	1	6
26	Khondera, Dudiyanckhera, Erora, Kudiya Tank	10	578	1	6
27	Jeroun, Simra Tank	3	276.084	1	6
28	Veersagar Tank	5	376.560	1	6
29	Artara, Darretha, Dumduma, Ladwari Tank	7	208.260	1	6
30	Teharka, Ghoghshi, Niwari Tank	8	830.534	1	6
31	Sindursagar, sakuli Tank, Putrikheda Regulator	9	535.886	1	6
32	Sujara Lift Scheme	4	580	1	6
33	Bhitari Lift Scheme	5	731.409	1	6
(09) District Chhatarpur					
1	Ranganwa Canal Project (Major)	29	7980.54	4	48
2	Urmil Canal Project (Major)	25	7672.376	7	84
3	Beniganj Dam Project (Medium)	18	5314.67	4	48
4	Beela Dam Project (Medium)	39	7186	5	60
5	Singhpur Barrage Medium Project	6	3822.68	2	24
6	Kel Anicut, Jhinna Tank	5	520.61	1	6
7	Tulatal, Manoriya Tank	2	299.196	1	6
8	Gora Tal	10	1093	1	6
9	Boodha Dam	5	1819.84	1	6
10	Eshanagar, Nandgany Tank	4	486	1	6
11	Thara, Rakshapurwa, Bagouta, Matguvan Tank	5	448	1	6
12	Motisagar, Bhirata, Amkheda Tank	4	440	1	6
13	Jagatsagar, Ghubela Tank	2	384	1	6
14	Basiya, Jhijhan, Madarka Tank	3	417	1	6
15	Joran, Churwari Tank	5	251	1	6
16	Ragouli, Pipat Kasar, Machyara, Darguvan Tank	5	364	1	6
17	Baksoi, Bagha, Angour, Banyara Tank	6	538	1	6
18	Motigarh, Dilari, Jharkua, Lampti, Brijpura, Raipura Tank	6	358	1	6
19	Bharatpura, Kishanpura, Ramsagar, Nayatal Tank	4	664	1	6
20	Sedpa Dam	10	1415	1	6
21	Badamalhara, Kammodpura, Sadwa Tank, Shyamri Anicut	6	678	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
22	Bagha, Baramsagar, Tawari, Sidhsagar, Panwar Tank	9	865	1	6
23	Gakariya, Gyolari Tank	4	250	1	6
24	Padariya Tank	4	331	1	6
25	Pahadgaon Tank	1	223	1	6
26	Devpur II tank	1	220	1	6
27	Dalipura, Bamnora, Ramtoriya Tank	3	525	1	6
28	Panya, Badatal, Kiratsagar Tank	5	223	1	6
(10) District Panna					
1	Devendra Nagar Tank	20	2400	1	12
2	Lokpal Sagar, Sunehara, Dubetal, Katra, Janakpur, Bilkhura Tank	2	1552	1	6
3	Adhar Sagar, Sakariya, Vrindawan Tank, Sawaiganj, Ranipur, Kakarhati Weir	5	1240	1	6
4	Mutwa, Bhilsany, Girwara Tank, Rajapur, Badagaon Weir	1	953	1	6
5	Bhawanipur, Brijpur, Hatoopur, Jamunhai Tank	2	756	1	6
6	Ramkhiriya, Diyab, Pahadikheda Tank	1	969	1	6
7	Bhatpatpur, Padraha, Ranital Tank, Vimtaha Weir	1	576	1	6
8	Bararnal, Bahari, Raipur Tank	3	953	1	6
9	Badi Banahri, Chhoti Banahrri, Sabdua, Gumanganj, Bilahi, Barhepur Tank	1	1266	1	6
10	Barachh, Vikrampur, Rampura Tank, Kohani, Dwari Weir	4	1174	1	6
11	Baroha, Pagra, Mahuadada, Koha Tank, Chipa Weir	3	720	1	6
12	Jaswantpura, Dwari Tank	6	1439	1	6
13	Semri, Sili, Nachnora, Gunour, Sugraha Tank	4	1381	1	6
14	Shyamardada, Kakarhai, Simri, Pawaiya Tank, Niwari Weir	4	1286	1	6
15	Karahi, Chhirraha, Patori, Khamhariya Tank	5	884.92	1	6
16	Umehi, Ken Anicut, Sugraha no 1 & 2, Goura nala Tank	7	746	1	6
17	Amdar, Raiyasanta, Kuatal, Nadan Tank	11	633.20	1	6
18	Amha, Umri, Kunwarpur Tank	14	605.14	1	6
19	Pati, Raipura Tank	4	299.58	1	6
20	Rangoli, Bharra, Jugarwara, Salaiya, Feransingh, Ganjda Tank	7	651.00	1	6
21	Dewra no.1, Shyamgiri, Shivsagar Tank	3	226.00	1	6
22	Baghwarkala, Badagaon, Khero, Baghanrawa tank	5	429.95	1	6
23	Jamda Tank	1	205.00	1	6
24	Simra, Santa Tank	3	259.00	1	6
(11) District Sagar					
1	Beela Medium Project	48	5091	4	48

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
2	Chandiya Tank	9	1826	1	6
3	Tigora, Indora Tank	2	252	1	6
4	Narayanpura, Barayatha Tank	2	317	1	6
5	Googra, Bineka Tank	3	221	1	6
6	Hinota, Kharmau Tank	3	185	1	6
7	Basahari, Mala, Maheri, Tewra Tank	2	431	1	6
8	Malthoun, Bandri, Gadhoula Tank	10	391	1	6
9	Surkhi, Heerapur Reservoir	10	558	1	6
10	Ratouna, Mahuakheda, Padrai, Madhaiyagoud Reservoir	7	561	1	6
11	Nayakheda, Bhaihari, Bachhlon Tank	6	535.68	1	6
12	Jhiriya, Tada Tank	4	527	1	6
13	Mansurwari, Machhariya, Satdhara, Chhevala Reservoir	15	1781	1	6
14	Mansurwari, Satdhara, Machhariya Reservoir	7	1009	1	6
15	Satdhara Reservoir	9	1101	1	6
16	Kairana Tank	9	295	1	6
17	Bhouhara Tank	9	1990	1	6
18	Kishanpur Tank	2	249.66	1	6
(12) District Damoh					
1	Mala Reservoir (Medium)	12	2339.67	1	12
2	Datiya Reservoir	4	409.43	1	6
3	Khamariya, Bagsari, Patwa, Chhoti Devri Reservoir	5	574.37	1	6
4	Majhgunva Village, Majhgunva Hansraj Reservoir	7	820.39	1	6
5	Motinalla, Gajhghat Reservoir	3	395.94	1	6
6	Chiraipani Reservoir	5	731.15	1	6
7	Abu Sanyasi, Kevlari, Ompani, Siddhbaba Reservoir	8	751.88	1	6
8	Barpati, Hardua, Mudar, Patwa Reservoir	9	1104.4	1	6
9	Jamuniya, Bansni Reservoir	6	963.12	1	6
10	Mandakpur, Semarkho Reservoir	3	405.08	1	6
11	Kalapani, Hardua Khurd Reservoir	5	546.96	1	6
12	Gajhghat, baheriya, Madha Reservoir	8	653.98	1	6
13	Reechhai, Jamnera Reservoir	8	1082.72	1	6
14	Bhajiya Reservoir	10	1171.59	1	6
15	Poudi Reservoir	6	628.3	1	6
16	Jabera Reservoir	7	674.51	1	6
17	Pipariya Jumran, Jaleharidhaba, Hardua Sadak, Bhatkhamariya, Mangrai Reservoir	9	877	1	6
18	Tejgadh Reservoir	14	1376	1	6
19	Beldana, Hardua Pani, Moohy, Changour, Saloun, Jhalouti nala Wier	7	790.05	1	6
20	Darouli Reservoir	7	1173.4	1	6
21	Bansi Chikhali, Chandna Harrai Reservoir		417.4	1	6
22	Lalpani Reservoir	3	250.25	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
23	Poudi Jetgarh Reservoir	4	191	1	6
24	Gudri Reservoir	5	472.4	1	6
25	Tirgarh, Bilgunva Reservoir	5	461.68	1	6
26	Hawla, Balakot Reservoir	3	523.82	1	6
27	Panda Reservoir	5	386	1	6
28	Ghana Maily, Kalrewa, Hardua Poudi, Patimahralsingh Reservoir	8	664.13	1	6
29	Sagouni, Naibandi, Kusmi Reservoir	6	1115.25	1	6
30	Khoba, Kuloova Reservoir	3	291.02	1	6
31	Kachoura, Barana, Samdhan Reservoir	6	1112.15	1	6
32	Nargunva Reservoir	3	342.06	1	6
33	Ambahi Reservoir	3	264.73	1	6
(13) District Satna					
1	Bansagar Project (Major)	85	13514.01	8	97
2	Bhenswar Dam (Medium)	11	1571	1	12
3	Kulgarhi Dam (Medium)	6	1214	1	12
4	Dubera Tank, Jhooranala, Magardaha Weir	10	328	1	6
5	Nimi, Kothi, Jaminihai Weir, Khajuriha, Toomin Tank	12	408	1	6
6	Bouliha, Karsara, Rajarwara Regulator	5	364	1	6
7	Amkui, Pahadi (Uchehara), Maharajpur Dam, Amran stop Dam, Amkui Weir	16	656	1	6
8	Singhpur, Midkani, Gond, Chhindua, Pahadi Dam (Nagod), Dadiya, Khangarh (Bhanwar) Stop Dam, Teekar, Nungara, Sidhhpur, Chuna Weir	17	1020	1	6
9	Karari Weir, Ramni Sagar, Vijay Sagar Dam	5	415	1	6
10	Naktara Dam, Amda Nala Weir	7	427	1	6
11	Salaiya Weir, Badra Regulator, Majhgavan, Dhanwahi, Narwar Tank	7	592	1	6
12	Lilji Reservoir	8	518	1	6
13	Dewra Molhai, Jagdish sagar, Hinota, Rajli Dam, Sendura Stop Dam	6	401	1	6
14	Asrar, Kirhai, Itma Kothar, Mouhas, Chhayasagar, Amjhar, Patra Dam, Mehariya, Doma Weir	10	1093	1	6
15	Koka, Mukundpur, Mahudar Dam	9	685	1	6
16	Amua Dam, Andharkhoh Tank, Majhiyar, Kandichua, Halawan weir	11	317	1	6
17	Ragoli, Sehra Weir, Birahana Dam, Boda Tank	12	737	1	6
18	Chithara, Kuri, Patna Dam, Chakra, Hanthiya, Khutha, Chamra Weir	15	1531	1	6
19	Khatkari, Koniya, Pondi Garada, Inchoul Vanshipur Weir	7	424	1	6
(14) District Rewa					
1	Teonthar Lift Scheme (Major)	133	11155.58	4	48
2	Bansagar Project (Major)	372	60763.24	29	348

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
3	Jarmora Tank (Medium)	39	3208	2	24
4	Gurma Project (Medium)	118	7181	4	48
5	Govindgarh Tank	8	777	1	6
6	Bamraha Tank	18	1980	1	6
7	Padokhar LIS	12	295	1	6
8	Tamra Pahad Tank	1	211	1	6
9	Pitambeagarh, Naiyanala, Patnari Tank	11	831	1	6
10	Dewara, Juda, Gobardaha, Lalganj, Piparchhatta Tank	12	807	1	6
11	Mauganj, Madrawal Tank	8	1137	1	6
12	Belha, Atari Tank	5	1028	1	6
13	Ramsagar, Nandanpur, Rakari Tank	9	721	1	6
14	Padar, Chhuhiya, Kanhaiya, Kaduawan Tank	13	915	1	6
15	Loni Tank	12	1880	1	6
(15) District Umaria					
1	Umarar, Koylari Reservoir	20	1943	1	6
2	Mahroi, Chandvar Reservoir, Jindanala, Bhadar Diversion	10	1412	1	6
3	Manpur Diversion, Bamera, Gadhpuri Reservoir	9	1116	1	6
4	Machhrrar Reservoir, Kathli Diversion	22	1552	1	6
5	Barbaspur, Kannabahara, Odri, Bhoutra, Kachodar, Patpariha Reservoir	9	1091	1	6
6	Amha, Baruha Reservoir, Basadh Diversion	7	1343	1	6
7	Kohka, Ghoghri, Bodli, Sajaniya Reservoir	8	1286	1	6
8	Dhanvahi Diversion	14	1980	1	6
9	Vandehi, Mudgudi Reservoir, Majhkheta Diversion,	8	998	1	6
(16) District Shahdol					
1	Bansagar Project (Major)	29	4047	2	24
2	Budwa Reservoir	5	603.74	1	6
3	Khannodhi, Malmathar, Karkat, Buchki, Pelwah Reservoir	5	133.00	1	6
4	Silpari, Barmaniya, Kuni, Bagaiha, Duladar Reservoir	9	512.00	1	6
5	Mehro, Bhikampur, Ghughri, Padkhuri, Birhuli, Changera, Semra, Harahi Reservoir	12	1512.00	1	6
6	Sidli, Bargavan, Harridih, Karahi (Jamdi), Roopoula Reservoir	10	1106.00	1	6
7	Pongri Reservoir, Maika, Maiki, Hardi, Gortara Dam	6	718.30	1	6
8	Mithouri, Sagra, Jodhpur, Semariya, Pathkhai Dam	8	1138.00	1	6
9	Chandaniya, Kathoutiya Dam, Maghgavan Tank, Maghgavan Weir, Bandhwa Reservoir	6	790.00	1	6
10	Singhpur Weir, Dhanoura, Sarangpur Dam	7	901.00	1	6
11	Kanadi, Binaika, Jhalmala, Atariya Reservoir	7	726.00	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
12	Lakhnouti, Amajhiriya Reservoir, Chundi Diversion	6	948.00	1	6
13	Odari Diversion, Kudri, Amjhor Reservoir	8	740.00	1	6
14	Akhetpur, Mau, Khadda, Charkhari, Devri Reservoir, Shahargarh Diversion,	10	833.00	1	6
15	Chhateni, Umargarh, Hirwar, Jamodi, Banasi Reservoir	9	793.00	1	6
16	Shahpur, Padmaniya, Bandhwatola, Karchul Reservoir	10	630.00	1	6
17	Uchehra, Devgarh Reservoir	3	564.94	1	6
18	Bijha, Podi, Jhiriya, Chhonda, Mohni Reservoir	6	415.00	1	6
(17) District Sidhi					
1	Mahan (Gulabsagar) Project (Major)	59	10771.887	6	72
2	Bansagar Project (Major)	282	28784.15	15	179
3	Barchar Dam (Medium)	16	2686	1	12
4	Visendha Dam Project (Medium)	9	1006	1	12
5	Sidhi Dam, Kolhudeeh Tank	15	978.11	1	6
6	Saro, Tura, Nebuha, Sapahi, Bamraha Dam	20	1677.62	1	6
7	Sher, Jamdhar, Mohadi, Sehra LIS, Sehra Anicut	16	1591	1	6
8	Ganjri, Maratha, Belha, Karmai, Chuwahi Dam	8	1692.54	1	6
9	Kodar, Bakiya, Devri Dam, Karikhoh, Jarvokhoh, Lurghuti, Podi, Heki Anicut	12	1917	1	6
10	Sehra Dam, Madwas, Amha, Trichuli Anicut, Mahan LIS	18	1799	1	6
(18) District Neemuch					
1	Morvan Tank (Medium)	26	2671	1	12
2	Malgarh, Lasoor, Palrakheda, Lapiya, Nisanni, Kenpuriya Tank	15	786	1	6
3	Nayapurana, DhanGoann, Ralayta, Kawai Tank	12	971	1	6
4	Malkheda, Dasani, Bharbhadiya, Dhamaniya, Jamuniya Tank, Bamora Pickup Wier	10	470	1	6
5	Jeeran, Harwar, Chenpura, Hameriya Tank	6	578	1	6
6	Chambleshwar Tank	10	1567	1	6
7	Parda Tank	1	340	1	6
8	Antri LIS	4	363	1	6
9	Mohakampura, Bani Tank	4	161	1	6
10	Jodmi LIS	5	579	1	6
11	Rajpura LIS	1	120	1	6
12	Kundaliya, Bhamesar, Besla Tank	4	261	1	6
13	Amarpura Tank	7	389	1	6
14	Khankhedi LIS	11	1610	1	6
(19) District Mandsaur					
1	Retam Barrage (Medium)	3	242.92	1	12
2	Dalouda Sagra Tank	3	231.00	1	6
3	Karoli, Ghatoda Tank	6	508.26	1	6
4	Jhotkhedi Tank	2	343.30	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
5	Mudandi Tank	2	266.70	1	6
6	Ranayara LIS	3	152.55	1	6
7	Basai LIS	2	105.50	1	6
8	Bhagor LIS	2	264.00	1	6
9	Laduna Tank	2	151.64	1	6
10	Asavati, Dhavla Deval, Junapani, Karavad Tank, Agar Pickup Wier	12	731.05	1	6
11	Kaka Sahab Gadgil Sagar	12	1982.69	1	6
12	Dharmrajeshvar, Chandvasa Tank	4	251.15	1	6
13	Ajaypur, Khejadiya MeghaTank	2	229.01	1	6
14	Bhalot, Bahikheda Tank	3	198.80	1	6
15	Ledi, Sammatkhedi, Kherkhedi Tank	5	576.085	1	6
16	Indragarh Tank	4	738.07	1	6
17	Billi, Antraliya, Dudhakhedi Tank, Sujanpura LIS	5	363	1	6
18	Ramkund, Badodiya Tank	4	439.511	1	6
19	Ralayta Tank	3	88.127	1	6
20	Poladongar, Kotada Bujurg Tank, Poladongar Pickup Wier	6	526.51	1	6
21	Dhabla Manohar, Santalkhedi Tank	3	183.43	1	6
22	Hanumantiya, Palkhanda, Surakhedi, Kotada Bujurg Tank	6	432.6	1	6
23	Tugni Tank	1	190.8	1	6
24	Gopalpura, Semrol Tank	10	866.68	1	6
(20) District Ratlam					
1	Sarojsarovar(Dholavad) (Medium)	59	5121	3	36
2	Bodina, Shikarvadi, Khedi, Ramsagar, Divel Tank	6	348.00	1	6
3	Dhamnod, Govardhan Sagar, Banjli, Rampuriya Tank	8	482.30	1	6
4	Kamed, Malvasa, Simlavada, Sevariya Tank	4	317.26	1	6
5	Shivgarh, Kangsi, Gwalgarh Tank	10	683.35	1	6
6	Bajana, Kherda, Lambisadad, Gadigamna Tank	6	269.30	1	6
7	Bhamat, Nal, Amarkui Tank	21	654.46	1	6
8	Ravti, Ranisingh, Garvara, Harthal, Manoripada, Dabri Tank	9	521.60	1	6
9	Rupniyakhala Tank	7	1492.00	1	6
10	Birmaval, Rattagarhkhed, Jharkhed, Pritamnagar, sarvad, Dholka, Kuadal Tank	9	590.97	1	6
11	Phachariya, Peladadi Tank	4	242.00	1	6
12	Kalukheda No. 1, Kalukheda No. 2, Bagiya, Sujapura Tank	3	303.00	1	6
13	Bhamariyanal, Machun Tank	7	374.24	1	6
14	Baguniya, Asavata, Pipliyasisodiya Tank	4	332.98	1	6
15	Kelkachh, Alkakhed, gudbheli, Patdi Tank	6	369.69	1	6
16	Palas, Kolvakhedi, Surajmal Jain, Lalguvadi Tank	11	945.69	1	6
17	Kolpur, Semalkheda, Chawlahedi Tank	12	474.10	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
18	Pipliyasihore Tank	6	451.26	1	6
19	Moriya, Richha Tank	7	296.00	1	6
20	Karwakhedi, Barkheda, Madhopur	3	410.79	1	6
21	Surajbadla, Bhaedariya, Ambapada Tank	6	350.44	1	6
(21) District Ujjain					
1	Araniya Bahadurpur Tank (Medium)	13	3179.83	2	24
2	Sarvankheda, Krishna Sudama Tank	8	266.02	1	6
3	Kajikhedi Tank	10	1346.46	1	6
4	Simrol Tank	2	127	1	6
5	Rudaheda Tank	4	426.57	1	6
6	Antalvasa Tank	6	702	1	6
7	Sipara, Buranabad Tank	5	441.99	1	6
8	Bagla Tank	1	280.03	1	6
9	Padaliya, Rajla, Bharla Tank	7	407.456	1	6
10	Unhel, Ramabaloda, Bedavan Tank,	4	543.35	1	6
11	Narela, Balodakoran Tank	4	869.57	1	6
12	Sahibkhedi Tank	8	697.1	1	6
13	Bhainsakhedi Tank	4	543	1	6
14	Silarkhedi, Gawdi Tank	5	444.65	1	6
15	Jastakhedi Tank	5	428.9	1	6
16	Undasa Tank	5	500.41	1	6
17	Kanardi(old), kanardi(new), Shamgi, Nainavad, Kharkhedi, Khatikhedi, Laksmipura Tank	7	503.35	1	6
18	Kadodiya, Pachoula Tank	2	270.34	1	6
19	Koyalkhedi Tank	1	540.46	1	6
20	Devikheda Tank	7	762.09	1	6
21	Ghattiya Tank	5	563	1	6
(22) District Shajapur					
1	Lakhundar Project (Medium)	21	3107.56	2	24
2	Chillar Dam (Medium)	35	3441	3	36
3	Bhesrod, Bori Tank, Pachor LIS	4	695	1	6
4	Chouma LIS, Burlay Tank	3	228	1	6
5	Kheda (New & Old), RanthBhawar, Berachhi, Borsali, Semli, Polaykhurd, Khedi Tank	9	477	1	6
6	Simrol Tank	9	1099	1	6
7	Nipaniya Tank	5	587	1	6
8	Narola Tank	1	605	1	6
9	Siloda Tank	1	453	1	6
10	Arandaiya, Aranya, Tilavad, Harrajkheda, Pochaner, Bavdi Kheda Tank	2	527	1	6
11	Bhanyakhedi, Chakrod, Khonkhra, Imlikheda Tank	1	548	1	6
12	Akodiya, Devli, Polaykalan, Tanda Tank	1	487	1	6
13	Jaithda, Kham, Raghunathpura Tank	1	457	1	6
14	Dhabaladheer, Piptyanagar LIS	1	738	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
(23) District Dewas					
1	2	3	4	5	6
1	Chandrakeshar Dam (Medium)	26	4000	4	48
2	Datuni Project (Medium)	36	9800	5	60
3	Paras, Bheekupura, Pankua no. 1,2 Tank	11	1588.95	1	6
4	Taklikheda Tank	2	235	1	6
5	Borni Tank	3	207	1	6
6	Mahigaon Tank	3	392	1	6
7	Koop, Bori, Dangarakheda Tank	9	766.06	1	6
8	Momanpura, Aghera, Mendiya Tank	12	780.01	1	6
9	Rajanal, Orni, Chhayanmaina Tank	7	659.91	1	6
10	Pipalranva, Bhutiya, Lakumadi Tank	4	234.27	1	6
11	Nagda, Satbali, Patadi, Singhni, Siya, Amlavati Tank	12	568.08	1	6
12	Guradiya surdas, Guradiya, Chandgarh Tank	7	745.64	1	6
13	Bhaisakhedi, Janoli, Budasa Tank	11	1287.68	1	6
14	Chidavad, Sadak Pipliya, Padalya Tank	3	229.69	1	6
(24) District Jhabua					
1	Mahi Project (Major)	73	10940.79	8	96
2	Kalapipal, Amlifaliya, Gola, Umari, Rotla, Udaypuriya, Parvat, Piliyakhadan Tank	13	570.22	1	6
3	Heerapur, Bhagor, Gopalpura, Narendra, Kheda, Moripada, Julvaniya, Dokarvani Tank	6	563.37	1	6
4	Golapada Picup Wier, Jhakela, Jhiravadiya, Chhapri, Rama, Hatyadeli, Vagnera, Satumra, Devli, Baniyamanki, Bochka, Bagalawat Tank	8	1103.44	1	6
5	Dhamoi, Badi Babdi, Amba, Semalkhedi, Sagiya Tank	7	1502.22	1	6
6	Narsinghpura, Doulatpura no.1, Lower Jhumka, Fatepura, Khardu, Doulatpura no. 2, Rehanda Tank	9	890.11	1	6
7	Rampura, Bhurimati, Dhamnikatara, Chhaparkhanda Tank	9	491.33	1	6
8	Samoi, Rupakheda, Rewamandli, Kanjwani, Chhoti Kanjwani, Kheda, Chhayan Chhoti Tank	9	614.12	1	6
9	Gulabpura, Mohanpura, Ambadungra, Badlipada, Khadkui, Sajvani Tank	9	805.85	1	6
10	Bajrang Sagar, Jarat, Hatyadeli, Jhonsli, Dedla, Agral, Khedi, Gadwada, Sajeli, Kadvapada, Mahuda Tank	17	1301.57	1	6
11	Shivsagar Tank	7	585.00	1	6
12	Bhavpura, Amlia, Saga, Khatawala, Chhapri, Thetham, Toraniya, Talai Tank	10	509.78	1	6
13	Timarni, Udaypuriya No. 1, No. 2, Chhota Julvaniya, Borava, Miyati, Bedava, Nathpada, Kundiyapada Tank	10	422.57	1	6
14	Sujapura, Navapada, Naharpura, Semaliya, Bordi Tank	10	535.42	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
15	Unnai, Khoriya, Sater New, Old, Amargarh, Bhisagra, Kalsadiya, Asaliya Tank	8.0	734.99	1	6
16	Rela, Gangakhedi, Mor, Gehandi No. 1, No. 2, Karwad Tank	7	573.91	1	6
17	Barvet No. 1, Jamli, Barvet No. 2, Dabri, Saloniya, Devli Tank	14	681.93	1	6
18	Khavasa No. 1, No. 2, Junakhavasa, Sagva No. 1, No.2, Narela, Chavariya, Chapaner Tank	9	615.89	1	6
19	Bhamal, Ranni, Badlipada, Sukhimali, Parwada No. 1, Parwada No.2, Semaliya Tank	6	531.17	1	6
20	Lalpura, Mathmath, Pratappura, Mohanpura, Matarundi, Unhalupada Tank	5	385.64	1	6
21	Mataji, Chorborali, Kardavad Tank	5	1116.70	1	6
22	Pampavati, Panas, Samli, Junakheda, Pangarpipli Tank	14	1782.16	1	6
23	Morjhiri, Rangpura, Dhanpura, Undikhali, Parewa, Mathuriya, Navapada Tank	8	1098.11	1	6
24	Tanboliya, Rupakheda, Patel Ka Naka, Bijori, Bhurighati, Bekalda Tank	9	502.77	1	6
25	Rupgarh, Dadiya, Juha, Moi Tank	8	973.50	1	6
26	Dholkhara Tank	5	906.40	1	6
(25) District Dhar					
1	Mahi Major Project	39	5458.38	4	48
2	Barmandal, Barkheda, Patoliya Tank	8	798.00	1	6
3	Chichodiya, Phulgavadi, Hatod No. 3, Sagval, Rampura Tank	7	595.00	1	6
4	Piplipada, Magjipada, Phuledi Tank	6	641.00	1	6
5	Chhadavad, Dhulet, Bhangarh/Songarh No. 2, Songarh No. 1, Panpura, Timayachi No. 1/Veerpada Tank	8	593.00	1	6
6	Khajurni, Dantoli, Baloda/LedGoan, Anandkhedi Tank	10	1155.00	1	6
7	Minda, Ruparel, Mavdipada, Bhopavar, Ratanpura, Sirakhaniya Tank	6	294.00	1	6
8	Sinduriya, Amlipada No.1, Amlipada No. 2 Tank	6	374.00	1	6
9	Badveli, Pasavda, Bodli No. 1, Bodli No.2, Rupkheda, Moulana Tank	7	617.00	1	6
10	Muhaja, Narwali No. 1 & 2, Piprani, Kakdkua, Kakdva, Pipalva Tank	6	281.00	1	6
11	Indiragandhi, Karanpura Tank	5	368.00	1	6
12	Junapani, Bhurekua, Amla, Semlipura Tank	7	442.00	1	6
13	Gyanpura, Malipura No.1, Harsigi, Chelay, Chilur, Mafipura Tank	7	434.00	1	6
14	Salkanpur, Manakhal, Badiy No. 1, Surajpura, Seetaghat, Antray Tank	8	467.00	1	6
15	Semlda, Umariya, Tarapur, Abdulapura Tank	10	1814.00	1	6
16	Kunda Tank	5	1386.00	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
17	Panj, Chandanpada, Rayalpada Tank	9	928.00	1	6
18	Piplipada, Jhinjharda, Inayatpura, Bamniyanaka, Jamniyanaka Tank	8	552.00	1	6
19	Bheelkunda No. 1, Bheelkunda No.2, Bheelkunda No.3, Aвалиya, Pirghata Tank, Sanjay Reservoir	6	427.00	1	6
20	Bheelbarkheda, Khejlipura, Sadpur, Malipura, Sikarpura, Haidri Tank	11	507.00	1	6
21	Maghapura, Magajpura, Miyapura, Kujrad, Galva, Gunhera Tank	7	392.00	1	6
22	Mansarovar Tank	5	600.00	1	6
23	Govindpura Tank	5	606.00	1	6
24	Mahaveer Pavitra Sarovar, Hanumankheda Tank	6	652.00	1	6
25	Doulatpura, Bamankhedi, Pana, Amlipada No. 3 Tank	10	702.00	1	6
26	Khaniamba, Chhatvani Tank	7	462.00	1	6
27	Asrakund, Kheda Tank	5	491.00	1	6
28	Bagedi Tank	10	1433.00	1	6
29	Shergarh, Kalukhedi Tank	4	233.00	1	6
30	Naya Khekhariya, Palasiya Tank, Karam Diversion	7	761.00	1	6
31	Mandavati Tank	6	1295.00	1	6
32	Saklda Tank	6	1700	1	6
33	Gagajali, Karondiya, Bajari, Jamunjhiri No.1, Jamunjhiri no.2, Karvatiyapura, Ravatpura Tank	6	726	1	6
34	Kothra LIS	6	303	1	6
35	Bhamori, Sulbardi, Buharla, Dasai Tank	6	442	1	6
36	Petlavad, temarni, khandlai, Udiyapura, Amba, Rajukhedi Tank	6	743	1	6
37	Sirroji Tank	6	1400	1	6
38	Dedli, Varipura, Ambapura, Birpur, Beldi Tank	6	260	1	6
39	Dhobriya, Khor, Balvari, Jamli No. 2, Bilda Pick up weir	6	602	1	6
40	Dhantalab, Mohanpura, Sali, Jamtalai, Badiya, Vasli, Satumari, Jamu, Khojabua Tank	9	467	1	6
41	Julvanya, Baprud, Jaladhari, Solyapura, Bhagyapura, Lamatiyapura, Hanumannala, Kabarva Tank	8	543.00	1	6
42	Jhapdi, Anjaniya, Ranatalav, Mehtakhedi, vayal, khandlai, Pipli Tank	7	755	1	6
43	Kurarda, Ghardi, Chapadiyanala, Punasa, Dehalghata, Khedlihanuman, Bilda tank	7	425	1	6
44	Kudujeta, Kohru, Agar, Baki Tank	6	351	1	6
45	Bhamori, Merti, Barkheda, Devjhiri Tank	6	227	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
46	Talvada, Bhaislai, Badgyar, Khargon, Logsari Tank	6	298	1	6
47	Nanoda, Badgoan, Jaynagar No. 2 Tank	6	177	1	6
48	Chikhaldia LIS	1	710	1	6
49	Kherva, Imlipura, Jhaba, Mogra, Kherli, Rampura Tank	6	270	1	6
50	Talanpur, Silkua, Badda, Sustipura, Amaljuma, Konda Tank	6	575	1	6
51	Badvanya, Revadda, Jamda, Bhorkunda, Chakalya Tank	6	432.8	1	6
52	Kisan, Donglyapani Tank	5	274	1	6
53	Kiradiya, Kharbardi Tank	6	287	1	6
54	Makodanala Tank	1	130	1	6
(26) District Indore					
1	Choral Project (Medium)	26	3900	3	36
2	Bisakhedi, Ratantalai, Nagpur, Barlai, Katakiya, Kadvalikhurd, Segval, Muradpura, Dakachiya Tank	10	624	1	6
3	Datoda, Bhatkhedi Tank	2	335.799	1	6
4	Chaydipura Tank	4	264.743	1	6
5	Yashvant nagar & Bargon, Hasalpur, Kotiyajhiri Tank	6	615.685	1	6
6	Depalpur Tank	6	931	1	6
7	Kishanpura, Kotiyajhiri, Akasoda, Nevri, Rangvasa, Mohna Tank	6	500	1	6
8	Chander, Beganda, Chhadoda, Karjoda, Khajraya, Khadi Tank	7	258	1	6
9	Naharkhedi, Rampuriya Bujurg Tank	7	573.979	1	6
10	Ganganala, Gadi, Pivday, Janakpura, Buranakhedi Tank	5	263	1	6
(27) District Khargone					
1	Dejla Dewada Project (Medium)	57	9000	7	84
2	Veda Pickup Wier, Sultanpura, Piplya Tank	6	731.000	1	6
3	Sundrel, Bhatalpura, Birul, Malkheda Tank	4	538.000	1	6
4	Temla, Jaitgarh Tank	8	972.000	1	6
5	Devla, Balkhadiya, Satvadi Tank	4	298.000	1	6
6	Ahirkheda, Bagkheda, KakadGoan, Sasyakhedi Tank	6	330.000	1	6
7	MachhalGoan, Kanjhar, Utakheda Tank	4	473.000	1	6
8	Agasiya, Nakti Jamli, Dhanva, Palasi Tank	6	512.000	1	6
9	Kaldha, Borgoan Tank	3	525.000	1	6
10	Navalpura Tank	5	1161.000	1	6
11	Devaliya, Karelinala, Ratanpur Tank	6	810.000	1	6
12	Kalapatha, Tharvar Tank	7	488.087	1	6
13	Upper Balvada, Upper Sasalya, Athva, Lalya Chapad Tank	11	1038.625	1	6
14	Jamanya, Jaithvay, Surtipura Tank	7	813.317	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
15	Jirbhar Tank	6	1457.732	1	6
16	Lachhora, Jamanya, Upper Lachhora, Baliya Tank	4	710.258	1	6
17	Kotalyakhedi, Dasoda Tank	2	183.832	1	6
18	Chandanpura, Ramthan, Kakatti, Doulatpura, Suarkhodri Tank	13	733.281	1	6
19	Hirapur, Dhankala, Selda, Dalchi, Bamankhali Tank	8	580.000	1	6
20	Gagan Tank	14	1002.00	1	6
21	Padalya, Hathhidgad, Prempura Tank	11	883.00	1	6
22	Ruplajhiri Tank	3	95.00	1	6
23	Dhavli Tank	3	80.00	1	6
24	Goverdhanpura, Jamanya, Palda, Chingun Tank	9	575.00	1	6
25	Salipura, Jhadi, Gujar Mohna, Sirasya, Avalya Tank	12	707.00	1	6
26	Mandleshwar Tank	5	483.00	1	6
27	Jamanyapani & Jamunpati Tank	3	242	1	6
28	Dhamnodnala, Regva, Khadkel, Jalkha No. 2 Tank	5	325.401	1	6
29	Dabri, Amar Bagva, Begandi, Bilidad, Ambadad, Naydad Tank	6	1024.788	1	6
30	Satak Tank	16	1799.692	1	6
31	Utavad, Sagvi, Jamla Tank	6	1169.524	1	6
32	Mugalkacheri, Jalkha, Sadli, Bardevla, Besarkund, Kathariya Tank	11	641.795	1	6
33	Bither, Gavla, Gujari, Barsalay Tank	8	315.022	1	6
34	Ambaknala LBC Tank	9	999.987	1	6
35	Ambaknala RBC Tank	7	750.000	1	6
36	Jaljiyoti, Temarni, Upper Jamla, Kundiya, Gujari No. 2, Khedi Tank	10	507.000	1	6
37	Bahadarpura, Ahilyapura, Dhaba, Hirapur, Sadadban, Domara Tank	7	484.152	1	6
38	Gadigaltar Tank	12	1157	1	6
39	Bhagvanpura Pickup Wier/Bangaga Tank	4	717	1	6
40	Junapani, Momdiya Tank	4	484	1	6
41	Gadaghat, Moghan, Retva Tank	6	307	1	6
42	Mengoan, Guvadi Tank	4	400	1	6
43	Vanihar Pickup Wier	12	1450	1	6
44	Adampura Tank	6	400	1	6
45	Chandgarh Tank	4	470	1	6
46	Baghaimata, Chhoti Un Tank	3	273	1	6
47	Nandgoan, Rajun, Jhiranya, Panyadad Tank	4	399	1	6
48	Un, Dehri, Kamodvada Tank	3	219	1	6
49	Segoan No. 1, Segoan No. 2, Bheekarkhedi, Virla Tank	10	1554	1	6
50	Bhadvali, Golvadi, Updi Tank	6	579	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
51	Silotiya, Dalki Tank	2	130	1	6
52	Dehri No. 2 Tank	8	850	1	6
53	Gavlan Tank	3	950	1	6
(28) District Badwani					
1	Bervada, Ausada, Chhoti Semli, Semli, Ambafalya, Limbi Tank	6	613.000	1	6
2	Nani badvani, Amaliyapani, anjrada No. 1, Kekadiya Tank	4	252.000	1	6
3	Gandhaval, Vegalgaan, Sipaiduvali, Sindhikhodra, Dhamariya Tank	6	302.000	1	6
4	Sustikheda, sukhpuri, Keli, Dongargoan Tank	4	266.000	1	6
5	Naktimata, Panalsud, Junapani Tank	4	449.000	1	6
6	Ranjeet, Balkua Tank	3	501.000	1	6
7	Bilvani, Bagdalvadi, Matti, Upla, Morani, Danod Tank	6	409.000	1	6
8	Salkheda, Naravala, Unchi Tank	5	804.264	1	6
9	Nandgoan, Hathikhoh, Khadkal, Haribad Tank	4	277.000	1	6
10	Segval Tank	10	747.000	1	6
11	Khurrampura, Kundmal, Jamanya Tank	6	162.980	1	6
12	Than No. 1,2, Sagvi No. 1, 2, Chitaval, Telyanala Tank	3	359.124	1	6
13	Bhorvada, Hardad, Rui, Chhoti Khargone, Rojhani Tank	7	606.000	1	6
14	Balsamud, Takli, Panva, Gavha Tank	6	436.000	1	6
15	Khadki, Nanijhiri, Jhakar, Gavadi Tank	9	148.978	1	6
16	Pipaldhar, Anjangoan Pickup Wier, Segvi, Borli Tank	11	444.079	1	6
17	Chachariyapati, Surani, Chitrai Tank	3	208.000	1	6
18	Chul Pickup Wier, Khariya, Kiramala, Kolki Tank	4	315.150	1	6
19	Chichalya, Jetpura Pickup Wier, Mankui, Rampura, Vangra, Moyda Tank	7	501.071	1	6
20	Kansel, Bhami, Chouki, Temla Tank	9	532.338	1	6
21	Jampati, Lavani Tank	6	400.000	1	6
22	Jalyapani Tank	4	381.000	1	6
23	Devdhar, Gourikheda Tank	7	594.826	1	6
24	Badgoan, Kanpuri Tank	4	433.000	1	6
25	Ralavati Tank	12	1345.000	1	6
26	Pisnaval, Jhirijamli, Harshnagar Tank	3	427.000	1	6
27	Jalgon, Kismari Tank	4	325.000	1	6
28	Salikala, Chhoti Nagalvadi, Padla Tank	6	372.000	1	6
(29) District Khandwa					
1	Bhagvant Sagar (Sukta) Major Project	71	12439.790	9	108
2	Saidabad, Jamdhad, Madrani, Dabhiya, Langoti, Siraliya, Patajan, Dagadkot Tank	8	732.47	1	6
3	Pipliya, Ambakhal Timarni, Ambakhal Jamaniya, Tigariya, Bramhdad, Damdama Tank	8	539.32	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
4	Sandalpur, Sukva, Saliyakhed, Ashraf Nagar, Rajur, Gangapa Anicut, Kheri, Manjhari Anicut	8	657.97	1	6
5	Kohdad Tank	1	182.83	1	6
6	Takalkhed, Karpur, Chirva Tank	3	233.04	1	6
7	Chirakhan, Karond Tank	2	258.39	1	6
8	Deshgaon No. 1, Chhirvel Tank	5	235.24	1	6
9	Dabhi, Pandhana Tank	2	114.99	1	6
10	Bhokariya Tank	5	198.99	1	6
11	Palsiyapani Tank	1	136	1	6
12	Bamjhar Tank	1	88.68	1	6
13	Manpura, gangapat, Gulardhana, Meerpur Tank	4	315.68	1	6
14	Khedi, Sivna Tank	2	637.86	1	6
(30) District Rajgarh					
1	Chhapi Tank (Medium)	12	1968	1	12
2	Kushalpur Tank (Medium)	33	4330	1	12
3	Kunwar Chainsagar Tank (Medium)	20	3448.217	1	12
4	Kasturipura, Suvanchedi, Samvasada, Tandhi, Tandikhurd Tank	8	915	1	6
5	Chhapni Tank	4	304	1	6
6	Kharkheda, Dhamanya, Fatepur, Katarmalji, Devri, Bordakhurd Tank	7	796	1	6
7	Devpur, Amanpur, Jaisinghpura Tank	4	374	1	6
8	Banskheda Tank	4	466	1	6
9	Piilya Kala Tank	7	785	1	6
10	Ghohatpur Tank	3	510	1	6
11	Surajpura, Bamlobe, Kalalpura, Sironji, Ravatpura Tank	10	674	1	6
12	Padalyakhedi Tank	5	700	1	6
13	Gokulpura, Chountra Tank	6	776	1	6
14	Junapani, Dhanvaskala, Bahadurpura, Kanwarpura Tank	11	619	1	6
15	Jodakya, Bajpura, Banskho, Maniyapura, Kanbe Tank	19	999	1	6
16	Khairsi, Chandpura, Dhobipura, Ataikheda, Kolukhedi Tank	10	604	1	6
17	Sadalpur, Shankarpura Tank	5	282	1	6
18	Motakhoyra, Kharkheda, Ahilyapura Tank	3	252.931	1	6
19	Bheekanpur, Mundla Lodha Tank	3	273	1	6
20	Gulavata Tank	3	190	1	6
21	Dhamanya, Dendi, Dhablkhurd, Ganeshpura, Rupaheda Tank	6	1014	1	6
22	Bavdiveh, Rughnathpura, Bhumariya, Sadiyakua, Jagannathpura, Chandtalai Tank	7	728	1	6
23	Gorakhpura Tank	4	700	1	6
24	Dob, Biloda, Shyampura, Junapani, Gadiya, Babdikheda Tank	12	764.12	1	6
25	Bisoniya, Napanera, Narayanpura Tank	10	731.168	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
26	Agar-Agri, Malavar, Baiheda, Pagara Tank	9	694.439	1	6
27	Shamsherpura Tank	6	1032.283	1	6
28	Tulsipura, Manki Tank	4	315.766	1	6
29	Jharkheda Tank	2	170	1	6
30	Nalajhiri, Devrikheda Tank	6	256.978	1	6
31	Badodiya Tank	5	910.716	1	6
32	Bandabedra, Sarana Tank	6	343	1	6
33	Haidapura, Vijaygarh, Hinoti Tank	10	520	1	6
34	Jamoniya Rao, Seeka, Tinoniya, Mandavar, Manpura Gujrati Tank	8	525.111	1	6
35	Kudali, Nipaniya Garhi, Shankarpura Tank	4	378	1	6
36	Motipura Tank	4	202	1	6
37	Tonka Tank	2	345.000	1	6
38	Umred Tank	1	185.000	1	6
39	Palabeh Tank	2	288.000	1	6
(31) District Vidisha					
1	Samrat Ashok Sagar Major Project	138	23384	13	156
2	Kethan Medium Irrigation Project	8	3187.547	2	24
3	Naren Medium Irrigation Project	17	2834.479	2	24
4	Koncha Medium Irrigation Project	8	1619	1	12
5	Javari, Sanklon Tank	7	490.00	1	6
6	Jajoun Tank	13	1215.00	1	6
7	Fufer Tank Scheme	4	308	1	6
8	Bhavankhedi, Ghataira, Muradpur Tank	4	578.418	1	6
9	Vardha Tank Scheme	1	530.315	1	6
10	Puraghtera Tank Scheme	5	567	1	6
11	Jambar Tank Scheme	4	235.068	1	6
12	Ghosua Tank	4	263.00	1	6
13	Danmadi Tank	5	769.00	1	6
14	Rusiy, Rusalli Sahu Tank	6	436.00	1	6
15	Garaitha, Ahemdabad Khilli Tank	11	2000.00	1	6
(32) District Bhopal					
1	Kaliasot Reservoir (Medium)	27	2452.42	2	22
2	Kervan Reservoir (Medium)	28	2636.52	1	10
3	Garethiya, Langarpura Reservoir	11	1543.307	1	6
4	Manikhedi, Kalyanpura, Mainapura Reservoir	10	800.017	1	6
5	Karondiya, Kamadpur, Namdarpura Reservoir	5	308.787	1	6
6	Kalapipal Reservoir	10	1869.784	1	6
7	Ghodapachhad, Hathaikheda Reservoir	4	989.837	1	6
8	Ajnal Pickup wier	3	469.497	0	2
9	Chanderi, Semri Reservoir, Chanced Barrage	5	1221.706	1	6
10	Pavaliya Barrage, Intkhedi, Tumda Reservoir	2	423.890	1	6
(33) District Sehore					
1	Kolar Project (Major)	143	34969.537	21	252
2	Barna Project (Major)	45	11585.949	5	60
3	Doraha Reservoir (Medium)	15	2794	4	48

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
4	Banetha Medium LIS	26	8013	4	48
5	Rampurakhurd Reservoir (Medium)	22	2100	4	48
6	Gyaraspura, Khaikheda Reservoir	6	484	1	6
7	Seelkheda Reservoir	5	532	1	6
8	Jamuniya, Raypura Reservoir	6	769	1	6
9	Salkanpur Tank		287.286	1	6
10	Khandabad & Talpura Tank		371.165	1	6
11	Kushmaili Tank		259.01	1	6
12	Manjhikhedi Tank	5	510	1	6
13	Bhagwanpura, Lotiya, Barkhedi Tank	4	504	1	6
14	Satpon, Barkhedi Tank	2	300	1	6
15	Jhalpipli Reservoir	1	162.611	1	6
16	Jharkheda, Lalyakhedi, Kundikhal Reservoir	4	179.064	1	6
17	Halyakhedi, Hammatpura Reservoir	4	226.001	1	6
18	Vinayakpura, Bhaukhedi Reservoir	8	249.001	1	6
19	Rupdi, Ramdasi Reservoir	5	301.895	1	6
20	Kalapipal, Upper Bordi, Bordi Reservoir	6	511.098	1	6
21	Konajhir, Rasalpura Reservoir	7	284.005	1	6
22	Shikasarpur, Neebukheda Reservoir	2	284.203	1	6
23	Ichhavar, Dhablamata, Rampura, Barkheda Reservoir	5	609.451	1	6
24	Lasudiyakanger, Guradiya, Pangra Reservoir	9	631	1	6
25	Chainpura, Ghainghi Reservoir	6	451.193	1	6
26	Mundla, Umarkhal, Haraspura Reservoir	7	362.872	1	6
27	Kankarkheda Reservoir	4	698.82	1	6
28	Titoriya Tank	2	210	1	6
29	Jheekdi Tank	3	211	1	6
30	Maina Frist, Maina Second, Sevda, Fudra Tank	3	502	1	6
31	Jharkheda Gua Tank	1	222	1	6
32	Bhounra, Bhounri Tank	5	636	1	6
33	Bager, Basuliya Bhati, Guradiya Roopchand Tank	8	484	1	6
34	Chhapar, Siddikganj Tank	5	505	1	6
35	Chheepaner LIS	4	810	1	6
(34) District Raisen					
1	Barna Project (Major)	203	41926.73	20	240
2	Samrat Ashok Sagar Major Project	30	4676	3	36
3	Kaliasot Reservoir (Medium)	2	450.395	0	2
4	Kervan Reservoir (Medium)	5	757.892	0	2
5	Ajnal Pickup wier	6	1386.584	1	4
6	Banchhod Tank	9	1417.48	1	6
7	Kamodiya, Piplai Tank	10	1112	1	6
8	Pagneshwar Lift	9	1740	1	6
9	Amrabad Tank	5	465.84	1	6
10	Makhani-GulGoan, Chandna, Maupathrai Irrigation Scheme	8	741	1	6

S.No. †	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
11	Lower Palakmati Tank	4	480	1	6
12	Dahod Tank	12	1862	1	6
13	Ratapani Tank	12	1755	1	6
14	Barbatpur Tank	2	242.24	1	6
15	Dhamdhusar Tank	5	485.825	1	6
16	Bheemvatika Tank	5	377	1	6
17	Nagri Tank	4	227.71	1	6
18	Apper Palakmati Tank	7	1800	1	6
19	Modha Tank	6	1272.09	1	6
20	Rampura Tank	3	253.35	1	6
21	Jujharpur Tank	5	431.53	1	6
22	Padariya Tank	2	167.49	1	6
23	Suda, Parsouda Tank	2	427.17	1	6
24	Lower Sangrampur Tank	4	320.27	1	6
25	Gundrai Tank	2	121	1	6
26	Ashapuri, Sagar Tank	4	427.35	1	6
27	Ambai, Nayapura, Sodarpur Tank	3	319.08	1	6
28	Badvai, Chaplasir New Tank	4	606	1	6
29	Pipaliya Goli Tank	2	354	1	6
30	Kalajhora, Khamariya Nimavar Ghat Piapliya Tank	5	607	1	6
31	Mudiyakheda Tank	5	785.59	1	6
32	Pati Tank	4	170	1	6
33	Basandehi Tank	3	288	1	6
34	Umarkhoh Tank	2	168	1	6
35	Keeratpur Tank	3	248.15	1	6
36	Khamariya chandora Tank	3	229	1	6
37	Kewlari Tank	6	280.29	1	6
38	Mankapur Tank	2	142	1	6
39	Unchakheda Tank	3	465	1	6
40	Kukra Tank	3	361	1	6
41	Barkhanda Tank	2	138	1	6
(35) District Betul					
1	Sanpna Reservoir (Medium)	17	4097.64	3	36
2	Bundala (Medium)	24	3468.847	2	24
3	Chandora (Medium)	16	2768.14	2	24
4	Kursi, Khamla, Koudiya, Koudi Reservoir	7	1258.000	1	6
5	Borgoan, Kolgoan, Junavani, Jamjhiri, Bheekund Reservoir	11	887.000	1	6
6	Kosmi, Jagdhar, Khandara, Jhadegoan Reservoir	5	6.000	1	6
7	Pachama, Padhar, Malsivni, Jharkund Reservoir	8	7.000	1	6
8	Kund, Chikhli, Dhanora, Bheempur, Lakkadjam, Jitudhana Reservoir	11	969.000	1	6
9	Dodajam Reservoir, Palanga, Dodra, Naharpur Barrage	5	535.000	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
10	Kolgoan, upper Javra, Sehra, Goundigola Reservoir	7	766.000	1	6
11	Jogli, Khokhra, Chundiya, Devpur Reservoir	8	416.530	1	6
12	Chilamtekri, Pahavadi, Powerjhandra, Salimet, Dulhargarh Reservoir	12	1136.000	1	6
13	Temru, Golai, Gopinathpur, Salivada, Dulhara Reservoir	11	1154.000	1	6
14	Gondidhana, Shobhapur, Mathni Reservoir	8	377.000	1	6
15	Badalpur, Punji, Batkidoh, Batki Reservoir	6	396.000	1	6
16	Ranipur Reservoir	10	1396.420	1	6
17	Jhagadiya, Uddan, Borgoan do, Golibargi, Ravanvadi Reservoir	14	841.770	1	6
18	Godhna, Pathakheda Reservoir	8	1201.960	1	6
19	Nishana, Motidhana, Buddi, Pathai, Baretha, Deshavadi, Hathikund Reservoir	14	1342.000	1	6
20	Seevanpat, Ramjidhana, Machchhi, Dhangoan, Pipariya Reservoir	9	1060.000	1	6
21	Maru, Gunghati, Chilkapur Reservoir	10	1383.000	1	6
22	Sonkhedi Reservoir	7	898.884	1	6
23	Dunava, Khalla, Sondiya, Kapasiya, Parasthani Reservoir	6	556.130	1	6
24	Mathani, Sendrya, Karpa Reservoir	6	434.920	1	6
25	Chikhli, Khairvani, Vardha, Hivra, Badegoan Reservoir	10	671.649	1	6
26	Dob, Pipariya, Dahua, Bagholi Reservoir	7	558.624	1	6
27	Khadamla, Pisata, Sukkhedi, Maykasarra, Saikheda Reservoir	8	945.120	1	6
28	Jambadi, Jhirikhapa, Ubhariya Reservoir	10	601.079	1	6
29	Dehgud Reservoir	8	1216.100	1	6
30	Pohar, Humanpeth, Sabdi Reservoir	7	788.310	1	6
31	Parsodi, Borgoan, Itava Reservoir	6	646.852	1	6
32	Chhoti Amravati, Bisnur, Shergarh, Pandri, Jhiri Reservoir	8	789.168	1	6
33	Morkha, Turaborgaon, Babarboh Reservoir	3	461.310	1	6
34	Lalavadi, Jamdehi, Lakhapur, Ramlisavariya Reservoir	8	518.536	1	6
35	Susundra, Malkota Reservoir	8	550.999	1	6
36	Pachdhar, Rabadiya, Ragadgoan Reservoir	6	532.571	1	6
37	Pulsi, Thani, Gujarmal, Mandvi Reservoir	9	665.000	1	6
38	Bakud Reservoir	6	1470.665	1	6
39	Khairvada, Kaldongari, Themgoan, Sirajgoan, Gudgoan Reservoir	8	615.515	1	6
(36) District Harda					
1	Tawa Project (Major)	330	76177.220	49	588
2	Imlidhana, Jamanya Tank	15	1869.000	1	6
(37) District Hoshangabad					
1	Tawa Project (Major)	622	135669.300	79	948

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
2	Guddikheda Reservoir	3	244.546	1	6
3	Amadehi Reservoir	4	365.956	1	6
4	Saradehi, Chichwani Reservoir	4	713.725	1	6
5	Dadivada, Basaniya, Kasda, Tamundol Reservoir	4	419	1	6
6	Bhamkapura, Kubdakhedi, Pathrota Reservoir	4	282	1	6
7	Silvani LIS	2	325.9	1	6
8	Bardha LIS	1	354.681	1	6
(38) District Katni					
1	Bahoriband Reservoir (Medium)	28	4888.24	3	36
2	Simrar Reservoir	17	2114.95	1	6
3	Datla Reservoir	11	1443.29	1	6
4	Amheta Reservoir	12	1359.94	1	6
5	Surkhipodi Reservoir	9	1402.98	1	6
6	Piproudh, Jarvahi Reservoir	5	922.67	1	6
7	Jhiringi, Bhajiya, Jhapi, Pahrua Reservoir	9	1394.2	1	6
8	Bhitrigarh Reservoir	8	1250.6	1	6
9	Borina, Pawra, Pali, Gurji, Godana Reservoir	13	1658	1	6
10	Simrakudri, Hardavara, Imliya, Devaliya Reservoir	6	912	1	6
11	Gorhabandha, Vasudha, Sugva, Chikhala, Patoha, Ahirganva, Barehta, Bhartala Reservoir, Devri, Dhorsi Regulator	17	1615.2	1	6
12	Ghinouchi, Bolha, Karahiya, Laxamansagar, Kumharwara Reservoir, Shri bandh Scheme	8	1036	1	6
13	Khitouli Reservoir	7	1690.89	1	6
14	Jagua, Betganga, Gurehanala Reservoir	5	1166.01	1	6
15	Khajura Regulator, Pathrehata, Gurehapipra Reservoir	6	925.63	1	6
16	Sijahni, Sakrirajvara, Muhas, Ghunsar, Indardevsari Reservoir, Jatwara, Ditwara Regulator	8	1071.27	1	6
17	Amadi, Basadi, Lokhan Reservoir	11	1682.81	1	6
18	Sakarvara, Khalraha Reservoir	14	1998.62	1	6
19	Chhapri, Masandha, Salaiya Reservoir	10	1078.52	1	6
20	Devri, Kodiya, Padwar, Silpuri Reservoir	14	1332.97	1	6
21	Dharvara Reservoir, Dohli Regulator.	5	787.56	1	6
22	Chandol, Sarangpur, Jhirri, Prachital Reservoir	11	1625.01	1	6
23	Sagouna, Chhahar, Jamuchua Reservoir, Singhantalai Scheme	13	1330	1	6
24	Sarra, Malhan, Magrehata, Devarihatai Reservoir	9	1021.61	1	6
25	Podi Padariya, Ghanghri Reservoir	2	718.67	1	6
26	Rampatan, Rupnath, Bandarchua Reservoir	10	718.67	1	6
27	Hinouti, Jujhari Kalhaiya, Shantinagar Reservoir	10	1384.65	1	6
28	Karonda, Simarha, Bijoura, Chhangava, Gora Reservoir	9	514.85	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
(39) District Jabalpur					
1	Mehgoan Tola Reservoir (Medium)	12	1708.57	1	12
2	Barnu Reservoir (Medium)	16	1786.78	1	12
3	Madai Reservoir (Medium)	19	2233.00	1	12
4	Bahoriband Reservoir, (Medium)	2	649.11	1	12
5	Tilhari, Kevlari, Purvatola Reservoir	6	292.58	1	6
6	Patpara, Koyalmuhi, Mehgoan Reservoir	8	810.06	1	6
7	Harduli, Jhiriya, Bairagi, Doli Reservoir	7	588.00	1	6
8	Bandhi, Sarouli, Tilsani, Pitkuhi, Chiraipani Reservoir	11	424.00	1	6
9	Bargi, Ghutehi Pickup Weir, Dinari, Khamhariya, Barkheda, Ghutehi Reservoir	6	441.42	1	6
10	Hatouli, Narela Reservoir	4	162.00	1	6
11	Mohari Reservoir	5	835.00	1	6
12	Badera Reservoir	5	702.00	1	6
13	Lodhi, Pipriya, Indrdaman, Churiya, Marhapatha, Silua Reservoir	6	460.84	1	6
14	Kakrhai, Panagar, Chhatarpur Reservoir	6	574.61	1	6
(40) District Narsinghpur					
1	Chirchita, Gourtala, Paramhansi Reservoir	8	635.00	1	6
2	Nadiya, Nagwara Reservoir	4	659.00	1	6
3	Babariya, Dugriya, Mugwani, Kanharpani Reservoir	5	503.00	1	6
4	Kishanpur, Bandhi, Kerpani, Datadogri Reservoir	8	651.00	1	6
5	Richhai Reservoir	4	732.00	1	6
(41) District Mandla					
1	Thanvar Reservoir (Major)	57	10376.69	8	96
2	Matiyari Project (Medium)	74	9459.12	8	96
3	Bichhiya Reservoir (Medium)	22	2346.42	4	48
4	Dhunadhar Reservoir (Medium)	7	1423.55	1	12
5	Majhgoan Reservoir (Medium)	19	1617.78	1	12
6	Binaika, Semarakhapa, Anicut, Jantipar, Devari Kangi Reservoir	9	1119.52	1	6
7	Narayanganj, Barbaspur, Mavai Reservoir, Bakouri Anicut	14	896.31	1	6
8	Mohgoanmali Boriya Anicut, Chikhli, Kudvan, Jamuniya Reservoir	6	906.05	1	6
9	Bhainala Anicut, Sermi, Khamhariya Reservoir	4	433.00	1	6
10	Pipri, Koko, Gurli, Bahera Reservoir	4	386.00	1	6
11	Hradayshah, Mehra Siwni Reservoir	14	519.22	1	6
12	Kohni, Chargoan, Chikhli, Poundsi Reservoir	7	815.97	1	6
13	Khapa, Beejadandi, Dhanvahi, Lawar Reservoir	7	610.40	1	6
14	Beejgoan, Barbaspur, Gwara, Kudamaili, Kubarikala Reservoir	15	814.97	1	6
15	Nidhani, Palehara, Malvathar Reservoir	6	340.50	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
16	Jhandatola, Rakhanala Chabi, Baniyatara Reservoir, Baniyatara Anicut	9	746.00	1	6
17	Junavani, Banehari, Ghughri, Kandra, Donger Mandla Reservoir	5	553.00	1	6
18	Patan, Poundkala, Surehali, Kaknu Reservoir	5	418.00	1	6
19	Simariya, Kohri, Ramgadhi Reservoir, Jaharmau Anicut	6	415.93	1	6
20	Bhantgoan, Bhalvara, Mohpani Reservoir	6	435.66	1	6
21	Dehara, Manegoan Reservoir	5	247.47	1	6
(42) District Dindori					
1	Sarastal, Tikra, Bhavarkhandi, Goyra Reservoir	11	991	1	6
2	Dandvidaypur Anicut, Lamantola, Gopalpur, Ghanamar Reservoir	10	1146	1	6
3	Dindori, Rahangi, Raypura, Lakhon Reservoir, Lakhon Regulator, Jamuniya, Anicut, Chatua, High Level Tank	13	596	1	6
4	Amarpur, Bahera, Bargatola, Pakhatola Reservoir, Bhakha Diverstion Scheme	12	887	1	6
5	Mohda, Padariya Reservoir, Bhajitola Anicut	9	839	1	6
6	Bargoan, Nevsa, Rangoan Reservoir, Kikariya Regulator	7	746	1	6
7	Suniyamar, Geedha, Sursatola Reservoir, Bondarnala, Labeda Anicut	11	493	1	6
8	Dhond, Dullopur Reservoir, Tarach Anicut	6	751	1	6
9	Gwara, Lalpur, Ratna Reservoir	5	338	1	6
10	Padriya, Choura, Mohara Pahrua, Kachhari Reservoir	15	921	1	6
11	Tikariya, Dobhi Reservoir, Sangrampur Anicut	8	406	1	6
12	Kohani Devri, Dhangoan, Sarai, Bastara Reservoir	10	366	1	6
13	Umariya, Kutdar, Devri, Dalkabanda, Badjhar Reservoir	14	704	1	6
14	Fatehpur, Khajritola, Kukarra Reservoir	9	907	1	6
15	Udar, Tikariya, Bhardwara, Pakar Bagharra, Sarangpur Padariya Reservoir	10	1955	1	6
16	Dhurra, Gorakhpur, Rakariya Reservoir	8	1405	1	6
17	Banjartola, Bhaganvara, Murta Reservoir, Khudiya Diversion Scheme	10	1082	1	6
18	Bargi, Devalpur, Kewlari Reservoir	4	320	1	6
19	Karounda, Bilaikhar, Khargahana Reservoir	5	285	1	6
20	Ramnagar, Pindrukhi Reservoir, Neemtola Diversion Scheme, Karnai Nala Anicut	10	838	1	6
21	Rachho, Nagdaman, Dhundisarai, Chandvahi Reservoir	8	848	1	6
22	Kahinjara, Sarwahi, Kodiya Reservoir	3	250	1	6
23	Dandana Nala Reservoir	10	1950	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
(43) District Chhindwara					
1	2	3	4	5	6
1	Kanhargoan Reservoir (Medium)	12	2795	1	12
2	Karaboh, Poama Reservoir	5	457.55	1	6
3	Bargona Reservoir	4	343.89	1	6
4	Shivlaldhana Reservoir	4	216	1	6
5	Umariya Dalel Reservoir	4	384.92	1	6
6	Kotalbardi, Bijepani Reservoir	3	814.84	1	6
7	Khapabihari, Gohargoan Reservoir	4	622.89	1	6
8	Kohpani Reservoir	4	459.47	1	6
9	Chakhla Reservoir	4	385.33	1	6
10	Umrnala Reservoir	5	1066.13	1	6
11	Rajdhana Reservoir	3	467.49	1	6
12	Harrai, Nandna, Kokanpipariya Reservoir	10	1180.08	1	6
13	Madvi, Ghudankhapa Reservoir	7	910.13	1	6
14	Muarsani Reservoir	3	213.98	1	6
15	Borgoan, Khori, Jamlapani Reservoir	4	452.34	1	6
16	Kisanpur Reservoir	4	244.72	1	6
17	Kanha, Dolapanjara Reservoir	3	378.19	1	6
18	Tawa, Chhui, Haranbhata Reservoir	9	1173.18	1	6
19	Ghoghri, Hivrasani Reservoir	6	297.49	1	6
20	Devkhoh Reservoir	7	740.38	1	6
21	Bangai, Harasdiwari, Tamiya Reservoir	7	643.19	1	6
22	Navegoan Reservoir	5	353.97	1	6
23	Umariya Reservoir	2	241.18	1	6
24	Devgoan, Manegoan Reservoir	6	989.08	1	6
25	Mohi, Bhadargondi Reservoir	4	488.29	1	6
26	Ringankhapa, Bichhuasani Reservoir	4	635.84	1	6
27	Temni, Hivrasenedvar Reservoir	3	656.93	1	6
28	Changoba, Dholankhapa Reservoir	4	499.12	1	6
29	Vadhynala Reservoir	10	1237.09	1	6
30	Meharakhapa Reservoir	2	280.81	1	6
31	Pipariyaklan, Silota Reservoir	4	263.44	1	6
32	Dongargoan Reservoir	4	475.1	1	6
33	Badhan, Pathari, Gugtara Reservoir	3	417.35	1	6
34	Kabadiya, Mendaki, Ramgarhi Reservoir	6	397.64	1	6
35	Pakhadiya, Atarvada Reservoir	5	400.14	1	6
36	Pulpuldoh, Pindraikla Reservoir	5	374.14	1	6
37	Mordongari Reservoir	1	233.17	1	6
38	Kamthi, Narangi Reservoir	3	226.35	1	6
39	Jhirlinga, Gangai Reservoir	2	200.57	1	6
40	Palatvada, Palhari, Bakanaganpur Reservoir	3	200.89	1	6
41	Sakarvada Reservoir	4	634.87	1	6
42	Lohara, Likhali Reservoir	4	463.42	1	6
43	Singodi Reservoir	2	226.8	1	6
44	Dhanoura, Bhumka Reservoir	2	381.85	1	6
45	Karidongri, Phutera Reservoir	5	264.27	1	6
46	Kangla Reservoir	3	265.29	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
47	Kheripaika Reservoir	1	202	1	6
48	Mohkhedi, Jatlapur Reservoir	5	509	1	6
49	Rajdongri Reservoir	1	208.93	1	6
50	Chirkutagondi Reservoir	4	271.81	1	6
51	Satkinala Reservoir	3	482.32	1	6
52	Thanwri, Bhajipani Kalan Reservoir	4	438.84	1	6
53	Palamau, Buchnai Reservoir	5	375.79	1	6
54	Bhajipanikhurd, Chargoan, Karbal Reservoir	4	268.8	1	6
55	Kekda, Navalgoantinfata Reservoir	7	529.85	1	6
56	Sarotha Reservoir	8	1127.28	1	6
(44) District Seoni					
1	Sanjay sarowar Project (Major)	194	45873.72	18	216
2	Roomal Reservoir (Medium)	17	2534.3	1	12
3	Chichband Reservoir (Medium)	11	2078.12	1	12
4	Bori Reservoir (Medium)	18	3078.2	2	24
5	Ari Reservoir (Medium)	23	4049.43	2	24
6	Sagarnadi Reservoir (Medium)	12	1688	1	12
7	Bijna Reservoir (Medium)	16	1809	1	12
8	Khatkar Reservoir	7	520.14	1	6
9	Gorakhpur (Dhanoura) Reservoir	5	331.02	1	6
10	Pipariya Tola Reservoir	3	308.21	1	6
11	Pipariya Reservoir (Barra)	3	280.36	1	6
12	Amanala Reservoir	1	324.00	1	6
13	Ouriya Reservoir	6	441.00	1	6
14	Manouri Reservoir	5	786.00	1	6
15	Payali Reservoir	4	803.13	1	6
16	Tola Pipariya, Poundsi Reservoir	5	520.20	1	6
17	Pratapgarh, Gorakhpur (Anjaniya) Reservoir	7	527.09	1	6
18	Pipariya, Peepartal, Katouli Reservoir	7	781.00	1	6
19	Potiya Reservoir	13	744.15	1	6
20	Bodanala Reservoir	14	690.00	1	6
21	Dhobisarra Reservoir	15	989.45	1	6
22	Bamhodi Reservoir	8	963.00	1	6
23	Goushala Reservoir	6	793.00	1	6
24	Khamkhareli (New), Kandipar, Khamkhareli, Bothiya Reservoir	7	510.77	1	6
25	Salhe Reservoir	2	247.56	1	6
26	Mohgoan, Atariya Reservoir	7	756.00	1	6
27	Udaypur, Amoda Reservoir	4	660.00	1	6
28	Khapa, Tikrahapa, Hiranbhata Reservoir	10	869.00	1	6
29	Pindrai, Uppermehta, Taimoornala Reservoir	7	409.00	1	6
30	Gurdanala, Lakhnadoun Reservoir	9	994.02	1	6
31	Dhapara, Bakhari, Devri, Begapipariya Reservoir	7	704.00	1	6
32	Dungariya, Salivada Reservoir	5	482.00	1	6
33	Kuddo, Bareli Reservoir	10	1067.00	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
34	Atari, Amai, Khamariya Reservoir	5	389.40	1	6
35	Gandheela, Pathariya, Kutmali Reservoir	8	666.00	1	6
(45) District Balghat					
1	Sanjay Sarovar Project (Dhuti LBC System) (Major)	123	20665.59	12	144
2	Wainganga Canal System Of Dhuti Weir (Major)	156	38285.356	19	228
3	Bagh LBC Interstate Project (Major)	81	17144.173	10	120
4	Nahlesara Reservoir (Medium)	34	5144.387	3	36
5	Jamuniya Reservoir (Medium)	27	3296.418	2	24
6	Kharadi Reservoir (Medium)	29	4284.03	5	60
7	Sarathi Reservoir (Medium)	34	5680.214	5	60
8	Murumnala Reservoir (Medium)	16	2796.14	3	36
9	Gangulpara Reservoir (Medium)	16	2257.474	3	36
10	Bakera, Basi, Bodalkasa new, Bodalkasa old, Khapa, Khandwa Reservoir	7	615.828	1	6
11	Ramrama, Sirra-1, Sirra-2, Botejhari, Nagjhar, Budbuda Reservoir	6	830.488	1	6
12	Murjhad, Bhandarbodi, Chorpindkepar, Tuiyapar, Shankarpipariya Reservoir	6	844.064	1	6
13	Amai 1, Amai 2, Lalpur, Bhajiyadand, Jhariya, Chikhladam Reservoir	6	917.633	1	6
14	Navegaon, Agarwada, Paraswadaghat, Pipariya, Nandi, Khajri, Chikmara, Patharwada Reservoir	9	641.433	1	6
15	Borikhedamal, Devri Reservoir, Lingaponar, Chandadoh, Bichhua, Borikheda Raiyat Reservoir	7	906.224	1	6
16	Shiv, Telanbodi, Hudiwala, Tolwara, Anjanbihari, Digdha, Kosumba, Ambejhari, Kudwa, Bhondki, Kisanpur, Kosamtola, Badpani 1, Badpani 3 Reservoir	10	547.724	1	6
17	Katangi nazul, Bopli, Sawangi, Jarahmohgaon, Narodi, Kodmi, Varud, Lakhawada, Tekadeebh, Jadkharid, Satara, Sawangi, Kosmi, Tekadi Reservoir	12	776.246	1	6
18	Hardoli, Bamhni, Chakaheti, Hathada, Gudrughat, Yerwaghat, Chopannala, Pandarwani Reservoir	11	677.446	1	6
19	Katanghari 1, Katanjhari 2, Pipariya, Tekadi 1, Tekadi 2, Sawangi Reservoir	6	889.622	1	6
20	Katanghari, Pipariya, Badgaon, Nayatola, Lohara, Tekadi Reservoir	9	809.662	1	6
21	Dharawasi-1, Dharawasi-2, Dharawasi-3, Mousmi-2, Devgaon Reservoir	3	429.76	1	6
22	Nagpura, Padharwani-1, Nagpura-2, Nagpura-3, Nagpura-4, Patharsahi-1, Patharsahi-2 Reservoir	3	710.250	1	6
23	Devgaon, Ranikuthar, Pandrapani, Sihora-1, Sihora-2, Sihora-3 Reservoir	4	718.00	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
24	Mohgaon-1, Jam, Mohgaon-2, Khurpudi, Tegnicala, Salebarri Reservoir	6	777.198	1	6
25	Dogarbodi, Samnapur, Duglai, Tekadi orma, Kategaon-1, Kategaon-2, Shervi Reservoir	8	572.165	1	6
26	Rani, Moriya, Salangtola, Kochewada, Lamta, Moriya, Kumhari, Bhondwa, Kochewada-1, Kochewada-2 Tank	5	642.258	1	6
27	Mau, Changatola, Pindkepar Reservoir, Jhurmur, Ghunadi-1, Ghunadi-2, Pratappur Tank	5	470.456	1	6
28	Waravillage, Newara, Akola, Belgaon Rana, Waratar, Ramgarhi Reservoir	5	475.85	1	6
29	Singadi nala Regulator, Laveri, Kotri, Katangi Reservoir	6	323.41	1	6
30	Waramen, Kaneri, Hirri-1, Hirri-2, Kirnapur, Bamhangaon Reservoir	5	985.39	1	6
31	Garda, Paraswada, Kunde, Sivnisagar, Tilpewada, Paraspani Reservoir	8	679.69	1	6
32	Mandwajhri, Alitola regulator, Ranakkodi, Kandra, Kalkatta, Chatrutola, Kaspur, Alotola, Kakodi Reservoir	8	747.48	1	6
33	Futkachoki, Bamhanwada, Gadai, Khandaphri, Hagarbandh, Sulsuli, Baghotola, Risewada, Lanji Reservoir	8	1083	1	6
34	Rampura, Bisoni, Dulhapur, Khajri, Sunarkakodi, Ghotighusmara Reservoir	8	802	1	6
35	Ramgarhi Pickup weir (LBC), Ramgarhi, Chichgaon, Surwahi, Shakha, Dudhi, Bhatlai, Bhimjori, Chartola, Newargaon, Mundghusri, Bithli Reservoir	16	926.774	1	6
36	Ramgarhi pickup weir (RBC), Goari, Parsatola, Sayal, Chakrawahi, Tingipur, Bhandarpur, Janpur, Sarasdol, Bisatwahi	9	972	1	6
37	Balgaon, Taregaon (R.B.C.), Basimkhar, Amanala (old), Alna (R.B.C.), Baizalpur, Samnapur, Bhimlat, Baherakhar Reservoir	12	721.979	1	6
38	Tumdibhat, Banna, Masninala, Sitadongri, Jhara, Mohbatta, Rondatola, Tumdibhat, Dudgaon, Sahejna, Jhara Reservoir	12	1227.00	1	6
39	Karamsara, Katiyanala, Lorajgat, Mohgaon, Karahoo, Pouni, Newaegaon Reservoir	10	823.840	1	6
40	Jagla, Devrimeta, Raiyat Thekedari, Gowari, Suktara, Parsatola, Palhera, Sayal, Bahkal, Chakarwahi, Tingipur Reservoir	13	809	1	6
41	Sarekha, Barwahi, Newargaon, Paddinala, Parsatola, Jatta Theke] Medki Reservoir	9	1094.00	1	6
42	Bhimori, Amgaon (Pongar), Amgaon (old), Mowala, Sherpar, Kohka, Katangi Reservoir	8	909.00	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
43	Bhangra, Sarekha no.1, Sarekha no.2, Bhilewani, Garari Korja, Korja Dalwada, Dantola, Tirgaon, Majgaon, Sanda Reservoir	10	925.00	1	6
44	Ahemadpur, Udadna, Dhuwa, Thema, Bhorwahi, Udadna Chandna, Ghoda Dahi, Lotmara, Katanga, Kosmi, Bhikewada Reservoir	10	859.00	1	6
45	Jalgaon, Jatalnala, Badgaon, Bagholi dalwara, Bhidi, Bagholi Jhiriya, Jhiriya Patora, Kurenda Chaktola, Kurenda Badgaon Reservoir	12	790.00	1	6
46	Kachnari, Singhanpuri, Ramgarhi, Pipartola, Ajgara, Kroda Behra, Chichgaon, Surwahi Reservoir	9	897.00	1	6
47	Rajpur, Lilameta, Kotrinala, Badalbehra, Lood, Khuddipur Kesa, Mohgaon, Kindgitola Singhai, Sonpuri Reservoir	9	503.00	1	6
48	Amanal, Hudditola, Roopjhar, Godritola, Chhapparwahi, Amariya, Umariya, Khamariya deenatola Reservoir	10	829.00	1	6
(46) District Ashok Nagar					
1	Rajghat Canal Project (Major)	16	3070.11	2	24
2	Mola Bandh (Medium)	14	2074	1	12
3	Koncha Medium Irrigation Project	10	2208	1	12
4	Jamakhedi, Tulsi Sarovar	7	806	1	6
5	Amahi, Barkheda Chhajju Tank	14	1241	1	6
6	Madhi Kanungo Tank	5	370	1	6
7	Dhakoni, Shahpur, Narsukhedi, Syamatori, Pachlana Tank	10	1424	1	6
8	Kadvaya, Kadvaya Feeder, Aniray, Mudheri, Sakarra, Indore Tank	10	813	1	6
9	Vanet, Bharroli, Jaleshwar Tank	3	807	1	6
10	Ramnagar, Singhpur Chalda, Vikrampur, Nayakheda, Mohanpur, Kunbarpur Tank	11	720	1	6
11	Kaithan Diversion Scheme	3	597	1	6
12	Sajanmau, Umariya, Pyasi Tank Anchalgarh Pickup Wier	18	950	1	6
(47) District Anuppur					
1	Johila Reservoir	9	1264	1	6
2	Bohita, Chhapani, Harratola, Muthertola Reservoir	6	720	1	6
3	Benvari, Dhupsara, Karanpathar Paladigwar Reservoir	8	698	1	6
4	Mungatola Reservoir	4	406	1	6
5	Bagan, Navgavan, Girvi Reservoir	8	643	1	6
6	Lapti, Batki, kantur Reservoir	6	740	1	6
7	Dhangava, Khanda, Sakara, Nakti, Pakariya Resevior, Chandas Diversion	6	430	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
8	Kalyanpur, Godhanpatan, Semarvar, Kadamsara, Ranisagar Reservoir	6	478	1	6
9	Latar Resevior, Katna Diversion	4	513	1	6
10	Lamatola, Manvari, Sajatola Reservoir, Kevai LIS	6	498	1	6
11	Chulhiyamar, Baigantola, Devari Reservoir	3	278	1	6
12	Andhiyarkhoh, Jarha, Kumharvar Reservoir	3	313	1	6
13	Payari Reservoir	3	115	1	6
14	Jhirokha, Kothi Reservoir	4	213	1	6
15	Khodri Reservoir	2	130	1	6
(48) District Burhanpur					
1	Morjhira, Ekjhira, Dhamangoan Tank	6	1388.9	1	6
2	Piprana, Haspura, Nimb Tank	4	583.43	1	6
3	Dudhiya, Guradiya Tank	4	237.82	1	6
4	Kalapath, Nandurakala, Nandurakhurd Tank	6	992.75	1	6
5	Kumharnala, Ruparel Resevior	4	1014	1	6
6	Sangrampur, Sitapur, Anjandoh Tank	7	1204	1	6
7	Ichchhadevi, Bambhada, Devhari, Motiyadev Tank	4	1318.83	1	6
8	Nimna, Mangrul, Bhouhana Tank	4	468	1	6
9	Sajni, Paretha Tank	4	389.11	1	6
10	Khidki, Kalar, Sanvali Tank	5	741.84	1	6
11	Rampura, Ghanshyampura, Shankarpura Tank	5	321.77	1	6
12	Haidarpur, Nayakheda Tank	5	422.8	1	6
13	Rehmanpura, Jhirpanjariya, Itariya Tank	6	1098.94	1	6
(49) District Singroli					
1	Kachan Dam Medium Project	36	4384	4	48
2	Madi Tank	25	1665	1	6
3	Dhadoura, Kanai No.1, 2, 3, 4 Tank	11	191	1	6
4	Bagdara, Sukhar, Danvgoan, Podi, Chitrangi, Bharra, Larwan Tank	6	742	1	6
5	Garra Dam Minar Irrigation Scheme	4	1061	1	6
6	Suhira, Nadon, Boni, Jhiriya, Bhutali, Tank	6	1015	1	6
7	Rampa, Basounda, Majhouli Tank	3	1040	1	6
8	Ahilon, Teldah, Baluha, Chitarbai Tank, Loua Anicut	8	956	1	6
9	Podi Dam, Mahuagoan Tank	4	787	1	6
10	Barka, Sajapani Tank	3	244	1	6
(50) District Alirajpur					
1	Ambari, Baddala, Gadat, Gavhan, Pithanpur, Thanasemli Tank	9	339	1	6
2	Begda talab Bandh no 1, Begda talab Bandh no 2	7	404	1	6
3	Deudhalwat, Kanti, Khandala, Kharkua, Jhora no 1, Jhora no 2 tank	12	401	1	6
4	Roaddha, Lakhankot, Ajanda no.1, Ajanda no.2, Chikhalkui, Jawaniya, Ghoghsa, Kushalwai Tank	9	497	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
5	Adharjhiri Tank	4	90	1	6
6	Guda, Arthi, Ikghari, Amjhiri Tank	8	224	1	6
7	Mordhi, Chandpur, Kadwaliya, Sorwa, Darkhad, Mehni Tank	12	442	1	6
8	Phaliyamad, Amba Tank	2	166	1	6
9	Athawa, Siswaliya, Badi Utawli, Ambi Tank	6	191	1	6
10	Kathwad, Bichhouli, Ambaja, Kosariya, Jamli Tank	11	418	1	6
11	Semlani, Gunri Tank	4	155	1	6
12	Malpur, Khodamba, Karwandi, Girgha, Kareti, Phata Tank	11	402	1	6
13	Motakhataja, Kukshi, Chandrashekhar, Ajadnagar, Borkundiya, Ladibariya, Sejawada no 2 Tank	10	313	1	6
14	Undari, Bilasa tank	4	319	1	6
15	Nehtada, Kharisindhi, Dehdala, Umda Tank	7	364	1	6
16	Rampura, Badaguda, Hirapura Tank	8	351	1	6
17	Sewariya, Kosduna, Kanwada no. 1, Umri, Kosduna tank	5	303	1	6
18	Thapli, Baledi, Dekakund Tank	3	164	1	6
19	Kanakakad, Dekalkua, Motaumar, Katakua Tank	9	164	1	6
20	Dedarwasa, Siyali no.1, Siyali no.2, Kolyabayda, Begalgaon, Dhamanda Tank	7	311	1	6
21	Bhaisawda, Badkui, Ambakhedi, Fur Tank	8	231	1	6
22	Jabukheda no.1, no.2, Bhutalkhedi, Puwala, Bhutkhedi, Bhutkhedi Chhayan, Semalkhedi, Kasba Ranapur Tank	11	913	1	6
23	Kotbu tank	2	65	1	6
24	Amankua, Malweli, Hathni Tank	7	266	1	6
25	Samlakund, Jawaniya, Kheriyamal, Jhiran Tank	6	254	1	6
26	Kanwada, Barkheda Tank	3	174	1	6
27	Badaitara, Chhota Itara Tank	3	230	1	6
28	Kotara, Patbardi Tank	4	118	1	6
29	Soliya Tank	1	45.53	1	6

(51) District Agar

1	Tillar Medium Irrigation Project	38	5493	2	24
2	Kachhal Medium Project	9	1155	1	12
3	Naharkheda, Dehriya, Shyampura, Salyakhedi Tank	8	635	1	6
4	Ganeshpura Tank	10	1600	1	6
5	Borkhedi Tank	3	485	1	6
6	Lolaki Tank	6	312	1	6
7	Piliyakhal Tank	9	1422	1	6
8	Bijanakhedi Tank	6	860	1	6
9	Kanakheda Barkheda Tank	4	516	1	6
10	Piptyakumar Tank	7	1470	1	6

S.No.	Name of Irrigation System	Area of Operation		Number of Water Users' Association	Number of Territorial Constituency
		Village	Extent (Ha.)		
1	2	3	4	5	6
11	Laxmikheda Tank	7	587	1	6
12	Parasukhedi, Amlabadiya, Jogi Bardiya, Ambabdoh Tank	6	418	1	6
13	Ranayara Kelva, Kachhaliya, Bhyanabhudaki, Karvankhedi, Bijanagri, Suvagoan Tank	13	884	1	6

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तिलक राज कपूर, सचिव.